

Messages From The Epistles

Introduction from the book of Acts

The Roman Empire had two predominate religions before Christ atoning sacrifice.

Judaism

The Jews worshiped a living God with commanded to be obeyed and acts to be performed. By obeying their God's commanded and performing acts, future forgiveness and salvation was "earned."

Paganism

The Pagan gods were either mythology or man-made gods, they could not speak so there were no commands. Their acts of worshipped focused on satisfying sensual desires. Temples were established with male and female prostitutes. Emperor Domitian titled himself as "God of the Earth" insisting he be acclaimed as such refusal resulted in persecution.

The book of Acts begins with the ascension of Christ back to Heaven to be with "The Father". Fifty days later on Pentecost Christ poured out His Spirit on all people not just the Jews. Because it was Pentecost there were in Jerusalem Jews, from all over the Roman Empire. The disciples were together in Jerusalem as Jesus had instructed. "Suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting." Upon hearing the mighty sound, the Jews rushed to the sight where the disciples were. (Acts 2:2)

"Peter, standing with the eleven, lifted up his voice and addressed them, 'Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. The prophet Joel prophesied 'And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my Spirit on all flesh.' ... 'And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved.'" (Acts 2:14-17)

"Men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know— this Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it." (Acts 2:22-24)

पत्रियों से संदेश

प्रेरितों के काम की किताब से परिचय

मसीह के प्रायश्चित के बलिदान से पहले रोमन साम्राज्य में दो प्रमुख धर्म थे।

यहूदी धर्म

यहूदियों ने एक जीवित ईश्वर की पूजा की, जिसका पालन करने और कार्य करने की आज्ञा दी गई थी। उनके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने और कार्य करने से, "भविष्य की क्षमा और उद्धार" अर्जित किया गया था।

बुतपरस्ती

मूर्तिपूजक देवता या तो पौराणिक थे या मानव निर्मित देवता, वे बोल नहीं सकते थे इसलिए कोई आदेश नहीं थे। उनकी पूजा के कार्य कामुक इच्छाओं को संतुष्ट करने पर केंद्रित थे। पुरुष और महिला वेश्याओं के साथ मंदिरों की स्थापना की गई। सम्राट डोमिनियन ने खुद को "पृथ्वी के भगवान" के रूप में शीर्षक दिया और जोर देकर कहा कि इस तरह के इनकार के परिणामस्वरूप उत्पीड़न हुआ।

प्रेरितों के काम की पुस्तक मसीह के स्वर्गरोहण के साथ "पिता" के साथ होने के लिए शुरू होती है। पचास दिन बाद पिनतेकुस्त के दिन मसीह ने न केवल यहूदियों पर सभी लोगों पर अपनी आत्मा उंडेली। क्योंकि पिनतेकुस्त का दिन यरूशलेम में पूरे रोमी साम्राज्य के यहूदी थे। चले यरूशलेम में एक साथ थे जैसा कि यीशु ने निर्देश दिया था। "एकाएक आकाश से बड़ी आँधी का सा शब्द हुआ, और उस से सारा घर जहाँ वे बैठे थे, भर गया।" शक्तिशाली आवाज सुनकर, यहूदी उस दृष्टि की ओर दौड़ पड़े जहाँ शिष्य थे। (प्रेरितों 2:2)

"पतरस ने उन ग्यारहों के संग खड़े होकर ऊँचे शब्द से उन से कहा, हे यहूदिया के लोगों और यरूशलेम के सब रहनेवालों, तुम यह जान लो, और मेरी बातों पर कान लगाओ। भविष्यद्वक्ता योएल ने भविष्यद्वाणी की, 'और अन्त के दिनों में परमेश्वर की यह वाणी है, कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उण्डेलूंगा। ... 'और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा।' (प्रेरितों के काम 2:14-17)

"हे इस्राएल के लोगो, ये शब्द सुनो: नासरत के यीशु, एक व्यक्ति ने परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली कामों और चमत्कारों और चिन्हों के साथ आपको प्रमाणित किया, जैसा कि आप खुद जानते हैं कि भगवान ने उसके माध्यम से आपके बीच में किया था - यह यीशु, निश्चित के अनुसार दिया गया था परमेश्वर की योजना और पूर्वज्ञान, तू ने अधर्मियों के हाथों क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला। परमेश्वर ने उसे मृत्यु के वेदनाओं को दूर करते हुए जिलाया, क्योंकि उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह उसके द्वारा धारण किया जाए।" (प्रेरितों 2:22-24)

दाऊद ने "यह देखकर पहिले मसीह के जी उठने की चर्चा की, कि वह अधोलोक में न छोड़ा गया, और न उसके शरीर में सड़न देखी गई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, और हम सब इसके साक्षी हैं। इसलिये वह परमेश्वर के दहिने हाथ ऊंचा होकर, और पिता से पवित्र आत्मा की

David “seeing this before spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this that you yourselves are seeing and hearing.” (Acts 2:31-33)
 ... “Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Now when they heard this they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do?” And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.” (Acts 2:36-39)

Author’s Comment: The Greek word *kai* translated “and” is a connecting word combining repent and baptism together. Another Greek word *de* also translated “and” separates two words rather than combines. Thayer’s Greek Lexicon states that *Kai* in accordance with the simplicity of the ancient popular speech, especially of the Hebrew tongue links statement to statement.

“The word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people.” Some “disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the Spirit with which he was speaking.” So, they brought in “false witnesses who stated “This man never ceases to speak words against this holy place and the law.” (Acts 6:7-10, 13)

Stephen recounted the history and prophecies of the Jews about Christ to the assembled leaders of the Jews. He then asked “Which of the prophets did not your fathers’ persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the Righteous One, whom you have now betrayed and murdered, you who received the law as delivered by angels and did not keep it. Now when they heard these things they were enraged, and they ground their teeth at him.” And Saul (Paul) approved of his execution. (Acts 7:52-55)

Author’s Comment: For fear of losing their power and position the religious leaders begin to persecute Christians immediately.

“There arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria.” ... “Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ.” (Acts 8:1 ... 5)

प्रतिज्ञा पाकर यह उण्डेल दिया है, कि तुम तुम देखते और सुनते हो।” (प्रेरितों 2:31-33)

... "इसलिये इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह, दोनों इस यीशु को, जिसे तू ने क्रूस पर चढ़ाया था, बनाया है। अब जब उन्होंने यह सुना तो उनका मन कट गया, और उन्होंने पतरस और और प्रेरितों से कहा, हे भाइयो, हम क्या करें?" पतरस ने उनसे कहा, “मन फिराओ और तुम में से हर एक के नाम से बपतिस्मा लो यीशु मसीह तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए, और तुम पवित्र आत्मा का उपहार पाओगे।” (प्रेरितों 2:36-39)

लेखक की टिप्पणी: ग्रीक शब्द *काई* का अनुवाद "और" पश्चाताप और बपतिस्मा को एक साथ जोड़ने वाला एक शब्द है। एक अन्य यूनानी शब्द *डे* ने भी "और" का अनुवाद किया है, जो दो शब्दों को जोड़ने के बजाय अलग करता है। थायर के ग्रीक लेक्सिकॉन में कहा गया है कि *काई* प्राचीन लोकप्रिय भाषण की सादगी के अनुसार, विशेष रूप से हिब्रू जीभ बयान को बयान से जोड़ता है।

"परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई, और बहुत से याजक विश्वास के आज्ञाकारी हो गए। और स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच बड़े बड़े काम और चिन्ह दिखाता था। कुछ "स्टीफन के साथ विवादित। परन्तु जिस बुद्धि और आत्मा से वह बातें कर रहा था, वे उसका साम्हना न कर सके।" इसलिये, वे “झूठे गवाह लाए जिन्होंने कहा, “यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध बातें करना कभी नहीं छोड़ता।” (प्रेरितों 6:7-10, 13)

स्तिफनुस ने यहूदियों के एकत्रित नेताओं को मसीह के बारे में यहूदियों के इतिहास और भविष्यवाणियों को सुनाया। फिर उसने पूछा, “तेरे पुरखाओं में से किस भविष्यद्वक्ता ने सताया नहीं? और जिन्होंने उस धर्मी के आने की पहिले से घोषणा की थी, जिस को तू ने पकड़वाकर मार डाला, उन को उन्होंने मार डाला, जिन को स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई व्यवस्था मिली, और उनका पालन नहीं किया। अब जब उन्होंने ये बातें सुनीं तो उनका क्रोध भड़क उठा, और वे उस पर दांत पीसने लगे।” और शाऊल (पौलुस) ने उसके निष्पादन की स्वीकृति दी। (प्रेरितों के काम 7:52-55)

लेखक की टिप्पणी: अपनी शक्ति और स्थिति को खोने के डर से धार्मिक नेता ईसाइयों को तुरंत सताना शुरू कर देते हैं।

"उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ, और वे सब यहूदिया और शोमरोन के सब क्षेत्रों में तित्तर बित्तर हो गए।" ... "फिलिप ने सामरिया के नगर में जाकर उन्हें मसीह का प्रचार किया।" (प्रेरितों के काम 8:1... 5)

"परन्तु शाऊल अब भी यहोवा के चेलों को धमकियां और घात करता हुआ सांस ले रहा है।" ... "जब वह अपने मार्ग पर चल रहा था, तो वह दमिश्क के पास पहुंचा, और अचानक स्वर्ग से एक प्रकाश उसके चारों ओर चमक उठा। और भूमि पर गिरकर उस ने यह शब्द सुना, कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तुम कौन हो? और उसने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तुम सताते हो। परन्तु उठकर नगर में प्रवेश कर, तो तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है।" (प्रेरितों के काम 9:1, 3-7)

यहोवा ने हनन्याह से कहा, 'जाओ, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ साधन है जो मेरा नाम अन्यजातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने ले

“But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord.” ... “As he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him. And falling to the ground he heard a voice saying to him, ‘Saul, Saul, why are you persecuting me?’ And he said, ‘Who are you, Lord?’ And he said, ‘I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do.’” (Acts 9:1, 3-7)

The Lord said to Ananias, “Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name.’ So, Ananias departed and entered the house. And laying his hands on him he said, ‘Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.’ And immediately something like scales fell from his eyes, and he regained his sight. Then he rose and was baptized and after taking some food, he regained his strength. For some days he was with the disciples at Damascus. And immediately he proclaimed Jesus in the synagogues, saying, “He is the Son of God.” (Acts 9:15-20)

“Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people.” While they “were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, ‘Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.’” (Acts 11:25-26 ... 13:2)

Paul began traveling throughout the cities in Asia Minor proclaiming Christ. He wrote letters to Christians in several of these cities encouraging them to remain faithful and live righteously. In addition to Paul’s epistles, the other epistles are included in The Messages of the Epistles.

Romans

Jesus was declared to be the Son of God by His resurrection.

The Gospel is the life, atoning sacrifice for sin, burial, resurrection, and ascension of Jesus of Nazareth. ¹⁵ This Gospel is the power of God for salvation.

The righteous live by faith while the life of the ungodly brings God’s wrath.

God’s eternal power can be perceived by the complexity of His created.

The ungodly in their futile thinking replace the immortal God with images man created and by myths.

जाने के लिए है। क्योंकि मैं उसे दिखाऊँगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। अतः हनन्याह चला गया और घर में आया। और उस पर हाथ रखते हुए उस ने कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु यीशु, जिस ने तुझे उस मार्ग पर दर्शन दिया, जिस से तू आया था, उसी ने मुझे भेजा है, कि तू फिर से देखे, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरन्त उसकी आंखों से तराजू जैसा कुछ गिरा, और वह फिर से देखने लगा। फिर वह उठा और उसने बपतिस्मा लिया और कुछ भोजन करने के बाद, उसने अपनी ताकत वापस पा ली। कुछ दिनों तक वह दमिश्क में चेलों के साथ रहा। और तुरन्त उस ने आराधनालयोंमें यीशु का प्रचार करके कहा, कि वह परमेश्वर का पुत्र है। (प्रेरितों 9:15-20)

“बरनबास शाऊल की खोज में तरसुस को गया, और उसे पाकर अन्ताकिया ले आया। पूरे एक साल तक वे कलीसिया से मिले और बहुत से लोगों को शिक्षा दी।” जब वे “प्रभु की उपासना और उपवास कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, ‘मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है।’” (प्रेरितों के काम 11:25-26 ... 13:2)

पॉल ने एशिया माइनर के सभी शहरों में मसीह की घोषणा करना शुरू कर दिया। उसने इनमें से कई शहरों में ईसाइयों को पत्र लिखे और उन्हें विश्वासयोग्य बने रहने और धार्मिकता से जीने के लिए प्रोत्साहित किया। पॉल की पत्रियों के अलावा, अन्य पत्रियां द मैसेज ऑफ द एपिस्टल्स में शामिल हैं।

रोमनों

यीशु को उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया था।

सुसमाचार जीवन है, पाप के लिए प्रायश्चित्त बलिदान, दफन, पुनरुत्थान, और नासरत के यीशु का स्वर्गारोहण। 15 यह सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है।

धर्मी विश्वास से जीते हैं जबकि अधर्मी का जीवन परमेश्वर का क्रोध लाता है।

ईश्वर की शाश्वत शक्ति को उसकी रचना की जटिलता से देखा जा सकता है।

अधर्मी अपनी व्यर्थ सोच में अमर ईश्वर को मानव निर्मित छवियों और मिथकों से बदल देते हैं।

अधर्मी दुष्ट, द्वेषी, लोभी और ईर्ष्यालु होते हैं जो उन लोगों का अनुमोदन करते हैं जो अधर्मी कार्य करते हैं।

एक ईसाई जीवन को ईश्वर को प्रतिबिंबित करना चाहिए अन्यथा उसका संदेश शून्य में है।

ईश्वर की धार्मिकता ईसाइयों के कार्यों से प्रकट होती है जो मसीह में विश्वास पर आधारित होती हैं और उनकी कृपा से न्यायसंगत होती हैं। पवित्र आत्मा के माध्यम से ईसाइयों में अब ईश्वर का प्रेम जो उसने उन लोगों को दिया, जो मसीह के रक्त से धर्मी, छुड़ाए और मेल-मिलाप कर चुके थे।

पाप के कारण मृत्यु समस्त मानवजाति में फैल गई।

The unrighteous are evil, malicious, covetous and envious who approve of those who practice ungodly acts.

A Christian's life must reflect God otherwise his message is void.

The righteousness of God is manifested by acts of Christians based on faith in Christ and justified by His Grace.

God's love is now in Christians through the Holy Spirit which He gave to those justified, redeemed and reconciled by Christ's Blood.

Death spread to all mankind because of sin.

"Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all men, because all sinned." (Romans 5:12)

"And the Lord God commanded the man, 'You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die.'" (Gen 2:16-17)

But eternal Life became available by the Christ's atoning sacrifice by trust and obedience to His commands.

"Or don't you know that all of us who were baptized into Christ² Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." (6:3-4)

A former Christian's sinful life died and was buried in Christ blood through baptism. Their former religious beliefs, traditions, are not to be part of their new spiritual life in Christ. This relationship can be broken by entering in a relationship with Satan through sinful acts which brings spiritual death unless forgiven by seeking forgiveness and returning to Christ. This is just like a marriage covenant¹⁸ that is dissolved by unfaithfulness to the marriage covenant.

Unfaithfulness to the covenant with God or spouse is adultery.

The covenant or "law" given by God through Moses, ceased to exist when Christ was nailed to the cross. In its place God established a new and better covenant through His Son with all who put their faith, trust and obedience in Christ.

This Spirit, God put in those He raised from their baptism in Christ's blood, constantly searches the inner man's heart and mind as He communicates with God.

"इसलिये जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों पर आई, क्योंकि सब ने पाप किया।" (रोमियों 5:12)

"और यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को आज्ञा दी, कि तू बाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने को स्वतंत्र है, परन्तु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जब तू उसका फल खाएगा, तो निश्चय मर जाएगा।" (उत्पत्ति 2:16-17)

लेकिन विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा मसीह के प्रायश्चित्त बलिदान के द्वारा अनन्त जीवन उपलब्ध हो गया।

"या क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जो मसीह 2 में बपतिस्मा लिया था, यीशु ने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? इसलिये हम उसके साथ मृत्यु के बपतिस्मे के द्वारा गाड़े गए, कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुएों में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी एक नया जीवन जीएं।" (6:3-4)

एक पूर्व ईसाई का पापमय जीवन मर गया और बपतिस्मा के माध्यम से मसीह के रक्त में दफन हो गया। उनकी पूर्व धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, मसीह में उनके नए आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। पापपूर्ण कृत्यों के माध्यम से साटन के साथ संबंध में प्रवेश करके इस संबंध को तोड़ा जा सकता है जो आध्यात्मिक मृत्यु लाता है जब तक कि क्षमा मांगने और मसीह के पास लौटने से क्षमा नहीं किया जाता है। यह एक विवाह वाचा की तरह है जो विवाह की वाचा के प्रति अविश्वास के कारण भंग हो जाती है। परमेश्वर या पति या पत्नी के साथ वाचा के प्रति अविश्वास व्यभिचार है।

मूसा के द्वारा परमेश्वर द्वारा दी गई वाचा या "व्यवस्था" का अस्तित्व समाप्त हो गया जब मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। इसके स्थान पर परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से उन सभी के साथ एक नई और बेहतर वाचा स्थापित की, जो मसीह में अपना विश्वास, भरोसा और आज्ञाकारिता रखते हैं।

यह आत्मा, जिसे परमेश्वर ने मसीह के लहू में उनके बपतिस्मे से जिलाया, लगातार आंतरिक मनुष्य के हृदय और मन की खोज करता है जब वह परमेश्वर के साथ संचार करता है।

परमेश्वर की इच्छा उनके द्वारा पूरी की जाएगी जो उससे प्रेम करते हैं और उसके स्वरूप के अनुरूप परिपक्व होते जा रहे हैं।

परमेश्वर अद्वितीय स्वभाव वाले लोगों को, भले या बुरे, अपने उद्देश्य को पूरा करने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए सत्ता में आने की अनुमति देता है।

धार्मिकता मसीह में विश्वास पर आधारित है, वचन (यूहन्ना 1)। जो लोग नासरत 14 के यीशु के मानव शरीर में मसीह को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने कब्र से पुनर्जीवित किया था, यदि उनका विश्वास आज्ञाकारिता के कार्य को उत्पन्न करता है, तो वे बच जाएंगे।

सुसमाचार उन लोगों के प्रति आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर की बुलाहट है जो अपना हृदय खोलते हैं।

परमेश्वर को इस बात का पछतावा है कि उसके कुछ लोग उसके विपरीत हो जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन यदि वे क्षमा मांगने के लिए उसके पास लौटते हैं तो उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सकता है, अन्यथा, वे हमेशा के लिए खो जाएंगे।

The will of God will be accomplished by those who love Him and are maturing by conforming to His image.

God allows people with unique dispositions, good or evil, to come to power to accomplish His purpose and to show His power.

Righteousness based on faith in Christ, the Word (John 1). Those who confess Christ as God in the human body of Jesus of Nazareth¹⁴ who God resurrected from the grave will be saved, if their faith produces the action of obedience.

The Gospel is God's call for obedience to those who open their heart.

God regrets that some of His people become contrary and fall away, but they can be restored if they return to Him seeking forgiveness, otherwise, they will be lost eternally.

A living sacrifice by a Christian is a life that does not conform to a worldly life even when tested.

The Church Christ built¹ is compared to the human body as both have many parts performing different task. These different functions are:

- Delivering His message of forgiveness
- Teaching how to live righteous lives
- Encouraging faithfulness
- Supplying the needs to those in destitute conditions
- Leading and training others to mature into likeness of God
- Showing mercy in love

Christians are to:

- Live in peace.
- Avoid confrontations.
- Not quarrel (fuss and fight).
- Not defy authority.
- Pay obligations timely.
- Not pass judgment on a brother's interpretation of scripture that does not in agree with your understanding. But study with him.
- Avoid those whose interpretations on some teaching²⁸ is the only possible correct one and who insist their understanding must be accepted by every Christian everywhere and at all times.

एक ईसाई द्वारा एक जीवित बलिदान एक ऐसा जीवन है जो परीक्षण किए जाने पर भी सांसारिक जीवन के अनुरूप नहीं होता है।

चर्च क्राइस्ट बिल्ट 1 की तुलना मानव शरीर से की जाती है क्योंकि दोनों के कई हिस्से अलग-अलग कार्य करते हैं। ये विभिन्न कार्य हैं:

- क्षमा का अपना संदेश देते हुए
- नेक जीवन जीना सिखाते हैं
- वफादारी को प्रोत्साहित करना
- निराश्रित परिस्थितियों में उन लोगों की जरूरतों को पूरा करना
- दूसरों को परमेश्वर की समानता में परिपक्व होने के लिए नेतृत्व और प्रशिक्षण देना
- प्यार में दया दिखाना

ईसाई हैं:

- शांति से जीना।
- टकराव से बचें।
- झगड़ा नहीं (झगड़ा और झगड़ा)।
- सत्ता की अवहेलना नहीं।
- समय पर दायित्वों का भुगतान करें।
- एक भाई की शास्त्र की व्याख्या पर निर्णय न पारित करें जो आपकी समझ से सहमत नहीं है। लेकिन उसके साथ पढ़ाई करें।
- उन लोगों से दूर रहें जिनकी व्याख्या 28 शिक्षाओं पर ही संभव सही है और जो अपनी समझ पर जोर देते हैं उन्हें हर ईसाई को हर जगह और हर समय स्वीकार करना चाहिए।

1 कुरिनियों

स्थानीय कलीसिया में विभाजन एक व्यक्ति या उसकी शिक्षा के बाद ईसाइयों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए, मसीह का शरीर ईसाइयों का एक संयुक्त कार्यशील निकाय नहीं है। एक शिक्षक या उपदेशक का अनुसरण करना परमेश्वर या मसीह की महिमा नहीं करता है।

चर्च में बुलाए गए लोगों के लिए, मसीह परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान है। बहुत से लोग जो मसीह को स्वीकार करते हैं वे धनी और शक्तिशाली नहीं हैं। इस संसार के सामान और शिक्षा में भले ही उनमें कमी हो, लेकिन वे आस्था के धनी हैं।

मसीह का सुसमाचार, सरलता और नम्रता में घोषित किया जाना चाहिए, न कि उच्च शब्दों वाले वक्ता द्वारा।

परमेश्वर ने आत्मा को उन लोगों में डाल दिया जो बपतिस्मा के दफन से पुनर्जीवित हो गए थे 2. यह आत्मा आपके विचारों को जानता है और लगातार परमेश्वर के साथ संचार कर रहा है। कलीसिया के शरीर के भीतर विभाजन और ईर्ष्या विकास को रोकती है। वे परमेश्वर की समानता में परिपक्व होने के निर्देशों को समझने में असमर्थ हैं।

सुसमाचार की नींव सबसे पहले किसी के द्वारा रखी जाती है। तब अन्य लोग परमेश्वर की "नई सृष्टि" को सिखाते और सुसज्जित करते हैं कि कैसे उसे प्रसन्न करके जीवन व्यतीत किया जाए।

1 Corinthians

Divisions in the local congregation are created by Christians following an individual or his teaching. Therefore, the Body of Christ is not a united functioning body of Christians. Following a teacher or preacher does not glorify God or Christ.

To the called, those in the church, Christ is the power and wisdom of God. Not many who accept Christ are rich and powerful. They may be lacking in this world's goods and education, but are rich in faith.

The gospel of Christ, should be proclaimed in simplicity and humility, not by an orator with lofty words.

God put the Spirit in those resurrected from the burial of baptism². This Spirit knows your thoughts and is constantly communicating with God.

Division and jealousy within the church body prevents growth. They are unable to understand instructions on how to mature into God's likeness. The gospel foundation is laid first by someone. Then others teach and equip God's "new creation" how to live pleasing to Him.

Christ's servants are to be faithful to Christ. They are not to judge the heart of fellow Christians.

Christian teachers must instruct others about the teachings of Christ and His apostles.

Those proclaiming the gospel are not to be a burden on those being taught, even if working at a secular job becomes necessary.

A Christians ungodly actions that are unacceptable by the community must never be condoned. Any such action when ignored by the church body indicates approval. It is their responsibility to confront and correct the individual. If the brother does not change, they are not to fellowship him in order to encourage his repentance and return to Christ.

Grievances and disagreements among Christians are to be settled by the church body not in a court of unbelievers.

It is better for one to be defrauded by a brother than judged by non-Christians, to do so causes ridicule and dishonors Christ.

The sexual immoral, greedy, marriage covenant breakers, and evil doers will not enter Heaven.

Everything that is good and acceptable, some may not be helpful.

Do not allow some secular action to dominate your life.

Living with someone in a marriage relationship but not joined together in marriage¹⁸ is immoral.

Neither married spouse should withhold themselves from fulfilling fleshly passions – sex, affection, companionship and love.

मसीह के सेवकों को मसीह के प्रति विश्वासयोग्य रहना है। उन्हें संगी मसीहियों के हृदय का न्याय नहीं करना है।

ईसाई शिक्षकों को दूसरों को मसीह और उनके प्रेरितों की शिक्षाओं के बारे में निर्देश देना चाहिए।

सुसमाचार की घोषणा करने वालों को पढ़ाए जाने वालों पर बोझ नहीं बनना चाहिए, भले ही एक धर्मनिरपेक्ष नौकरी में काम करना आवश्यक हो।

एक ईसाई अधर्मी कार्य जो समुदाय द्वारा अस्वीकार्य हैं उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। चर्च निकाय द्वारा अनदेखा किए जाने पर ऐसी कोई भी कार्रवाई अनुमोदन को इंगित करती है। व्यक्ति का सामना करना और उसे ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है। यदि भाई नहीं बदलता है, तो उन्हें उसके पश्चाताप को प्रोत्साहित करने और मसीह के पास लौटने के लिए उसकी संगति नहीं करनी चाहिए।

ईसाइयों के बीच शिकायतों और असहमति को चर्च निकाय द्वारा अविश्वासियों की अदालत में नहीं सुलझाया जाना चाहिए।

गैर-ईसाइयों द्वारा न्याय किए जाने की तुलना में किसी के लिए भाई द्वारा धोखा दिया जाना बेहतर है, ऐसा करने से मसीह का उपहास और अपमान होता है।

यौन अनैतिक, लालची, विवाह अनुबंध तोड़ने वाले और दुष्ट कर्म करने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे।

सब कुछ जो अच्छा और स्वीकार्य है, कुछ मददगार नहीं भी हो सकते हैं। किसी लौकिक कार्य को अपने जीवन पर हावी न होने दें।

शादी के रिश्ते में किसी के साथ रहना लेकिन शादी में शामिल नहीं होना 18 अनैतिक है।

किसी भी विवाहित पति या पत्नी को शारीरिक वासनाओं - सेक्स, स्नेह, साहचर्य और प्रेम को पूरा करने से खुद को रोकना नहीं चाहिए।

तनाव या उत्पीड़न के समय में शादी न करना ही बेहतर है, जो अधिक तनाव पैदा कर सकता है।

विवाहित लोगों को अलग नहीं होना है, लेकिन यदि अलगाव होता है, तो उन्हें अविवाहित रहना है या मेल-मिलाप करना है।

एक अविश्वासी पति या पत्नी को तलाक न दें यदि वे विवाह में विश्वासयोग्य बने रहना चाहते हैं या चाहते हैं।

यदि अविवाहित व्यक्ति अपनी शारीरिक वासना को नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो वासना से विवाह करना या यौन अनैतिक होना सर्वोत्तम है।

एक विधवा 30 ईसाई, पुरुष या महिला, को एक अविश्वासी से शादी नहीं करनी चाहिए।

सुसमाचार के उद्घोषकों को अन्य ईसाइयों द्वारा मसीह के सेवकों के रूप में उनके काम के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

जब इस्राएली मिस्रियोंके दासत्व से निकल गए, तब वे जल में से होकर चले, और परमेश्वर के बादल के तले, उस वाचा के अधीन जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी या, वे परमेश्वर की सन्तान हो गए। जब वे उसके बच्चों के रूप में परिपक्व हुए तो उन्होंने परमेश्वर का भोजन भी खाया और उसका पानी पिया। यह एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे व्यक्ति मसीह के लहू में डूबे (बपतिस्मा) मसीह द्वारा दी गई नई वाचा के तहत परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं।

प्रलोभन आज होता है - "इसलिए जो कोई सोचता है कि वह खड़ा है, ध्यान रहे कि वह गिर न जाए। कोई ऐसा प्रलोभन नहीं आया है जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वासयोग्य है, और वह तुम्हें तुम्हारी

In times of stress or persecution it is better not to marry, which can create more stress.

Those married are not to separate, but if separation occurs, they are to remain unmarried or be reconciled. Do not divorce an unbelieving spouse if they desire or are willing to remain faithful in marriage.

If one not married is unable to control their fleshly passion, it is best to marry than lust or become sexually immoral.

A widowed³⁰ Christian, man or woman, should not marry an unbeliever.

Proclaimers of the Gospel should be compensated by other Christians for their work as servants of Christ. When the Israelites departed from their Egyptians bondage, they passed through water and under God's cloud, they became children of God under a covenant given by God through Moses. They also ate God's food and drank His water as they matured as His children. This serves as an example how individuals being immersed (baptized) into Christ's blood becoming Children of God under the New Covenant given by Christ.

Temptation occurs today – "Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it." (10:12-13)

Author's Comment: Always seek to do what is best for others over your personal desires. Recall Jesus said the second great commandment was "Love your neighbor as yourself." (Matt 22:39)

One's decision makers are to be honored by your actions as they are responsible for your welfare and that of others.

Husbands and wives are dependent upon each other as they are joined together as one in marriage.

There can be teachings and practices in a church^{25 & 27} assembly which causes division. This results in fractured unity and fellowship.

Bread eaten at the "Lords Supper" represents Jesus who offered His sinless body as the only sacrifice for the forgiveness of sin. The fruit of the vine represents the blood of His atoning sacrifice which brings forgiveness. Participating of His memorial feast without focusing on Christ body and blood that brought forgiveness is an unacceptable ritual – taken in an unworthy manner.

When Christians assemble for the purpose of a common meal, unity and fellowship should exist. The Spirit gives different activities for members of Christ's Body to perform. Therefore, every member is not expected to do every function. These different activities include:

- encouraging others to be faithful,

सामर्थ से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, परन्तु परीक्षा के साथ बचने का मार्ग भी देगा, कि तुम उसे सह सको।" (10:12-13)

लेखक की टिप्पणी: हमेशा अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के स्थान पर दूसरों के लिए सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करें। स्मरण करो यीशु ने कहा था कि दूसरी महान आज्ञा थी "अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो।" (मैट 22:39)

निर्णय लेने वालों को आपके कार्यों से सम्मानित किया जाना चाहिए क्योंकि वे आपके और दूसरों के कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं।

पति-पत्नी एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं क्योंकि वे विवाह में एक साथ जुड़ जाते हैं।

चर्च 25 और 27 विधानसभा में शिक्षाएं और अभ्यास हो सकते हैं जो विभाजन का कारण बनते हैं। इसका परिणाम खंडित एकता और संगति में होता है।

"लॉर्ड्स सपर" में खाई गई रोटी यीशु का प्रतिनिधित्व करती है जिसने पाप की क्षमा के लिए अपने पाप रहित शरीर को एकमात्र बलिदान के रूप में पेश किया। बेल का फल उनके प्रायश्चित्त बलिदान के रक्त का प्रतिनिधित्व करता है जो क्षमा लाता है। मसीह के शरीर और लहू पर ध्यान केंद्रित किए बिना उनके स्मारक भोज में भाग लेना, जो क्षमा लेकर आया, एक अस्वीकार्य अनुष्ठान है - एक अयोग्य तरीके से लिया गया। जब ईसाई एक आम भोजन के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं, तो एकता और संगति मौजूद होनी चाहिए।

आत्मा मसीह के शरीर के सदस्यों को प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ देता है। इसलिए, प्रत्येक सदस्य से प्रत्येक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इन विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं:

- दूसरों को वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करना,
- यह सिखाते हुए कि कैसे परमेश्वर को स्वीकार्य और प्रसन्न रहना है,
- सुसमाचार की घोषणा, और
- सभी सदस्यों को उनके शिक्षण, उनके उदाहरण और उनकी गतिविधियों को देखकर परिपक्वता की ओर सहायता करना।

प्रेम के बिना आध्यात्मिक मनुष्य कुछ भी नहीं है। जब समय समाप्त होता है तो आशा वास्तविकता बन जाती है और विश्वास समाप्त हो जाता है क्योंकि सभी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन प्रेम परमेश्वर का सार है और सदा बना रहता है।

जब मसीह के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो सभी से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन एक ही समय में भाग लेने वाले सभी भ्रम पैदा करते हैं और बाहरी लोग आपको अजीब और आपके दिमाग से बाहर समझते हैं। भ्रम को दूर करने के लिए, अलग-अलग वक्ताओं को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से एक-एक करके क्रम से बोलना चाहिए। एक पेशेवर वक्ता द्वारा तैयार संदेश का कोई उल्लेख नहीं है; उदाहरण के लिए, पल्पिट उपदेशक।

बोलने वाले में से 31 की पत्नियों को अपने घर की एकांतता में स्पष्टीकरण मांगने की प्रतीक्षा करके सम्मान और सम्मान दिखाना चाहिए। "जैसा कि कानून कहता है" शायद यहूदियों के बीच एक परंपरा थी।

सुसमाचार 10 मसीह है। उसकी मृत्यु, (पाप के लिए प्रायश्चित्त बलिदान) दफनाना, पुनरुत्थान, प्रकटन, और उसका स्वर्गारोहण।

आदम ने अवज्ञा के द्वारा मृत्यु को लाया।

- teaching how to live acceptable and pleasing to God,
- proclaiming the Gospel, and
- assisting all members toward maturity by their teaching, their example and by observing their activities.

Without love the spiritual man is nothing. When time ends hope becomes the reality and faith ceases as all things are seen. But love is God's essence and endures forever.

When those in Christ assemble together, all are expected to participate. But all participating at the same time causes confusion and outsiders consider you weird and out of your mind. To eliminate confusion, individual speakers should speak in sequence, one at a time, for the purpose of training and encouraging. There is no mention of a prepared message by a professional speaker; e.g., pulpit preacher.

Wives ³¹ of the one speaking must show honor and respect by waiting to ask for clarification in the privacy of their home. "As the law says" was probably a tradition among the Jews.

The Gospel ¹⁰ is Christ. His death, (the atoning sacrifice for sin) burial, resurrection, appearance, and His ascension.

Adam through disobedience brought death.

Christ through obedience brings life.

One's companions have a great influence over their actions, both good or evil.

Physical seed must die before new life can begin.

This is also true for spiritual seed. There must be a death to the sinful life, a burial in Christ blood (also referred to as baptism), before a new a spiritual life can be resurrected by God.

Bodies ³ of the physical dead will be changed into an imperishable one.

When one commits to provide assistance for the needy, they are to regularly set funds aside and not wait until the last minute.

2 Corinthians

God comforts His Children in their afflictions which should cause one to rely on God rather than self. Prayer comforts and helps others overcome trials and stress

God's Spirit was put into the risen "new creation" as His seal. This spirit is in constant communication with God.

Removal of fellowship ¹, by the majority, from a willingly sinning brother may be necessary in order to bring about repentance.

A living sacrificial life replaces personal desires.

आज्ञाकारिता के द्वारा मसीह जीवन लाता है।

किसी के साथी का उसके अच्छे या बुरे दोनों कार्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

नया जीवन शुरू होने से पहले भौतिक बीज को मरना होगा। यह आध्यात्मिक बीज के लिए भी सच है। पापी जीवन के लिए एक मृत्यु होनी चाहिए, मसीह के लहू में एक दफन (जिसे बपतिस्मा भी कहा जाता है), इससे पहले कि एक नया आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर द्वारा पुनर्जीवित किया जा सके।

देह 3 देह को अविनाशी में बदल दिया जाएगा।

जब कोई जरूरतमंदों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तो उन्हें नियमित रूप से धन अलग रखना चाहिए और अंतिम समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

2 कुरिन्थियों

परमेश्वर अपने बच्चों को उनके कष्टों में दिलासा देता है जिसके कारण व्यक्ति को स्वयं के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए।

प्रार्थना आराम देती है और दूसरों को परीक्षाओं और तनाव से उबरने में मदद करती है

परमेश्वर की आत्मा को उसकी मुहर के रूप में पुनर्जीवित "नई सृष्टि" में डाल दिया गया था। यह आत्मा ईश्वर के साथ निरंतर संचार में है।

पश्चाताप लाने के लिए स्वेच्छा से पाप करने वाले भाई से बहुसंख्यक फेलोशिप 1 को हटाना आवश्यक हो सकता है।

एक जीवित बलिदान जीवन व्यक्तिगत इच्छाओं की जगह लेता है।

पुरानी वाचा, "व्यवस्था", मृत्यु को ले आई। नई वाचा जीवन और स्वतंत्रता लाती है; अंततः एक रूपांतरित शरीर भगवान की समानता में।

जीवन के सुख इस दुनिया के "देवता" हैं और वे अविश्वासियों के मन को बांधते हैं।

भौतिक शरीर एक अस्थायी निवास है। मसीह में उनके आत्मिक शरीर का स्थायी निवास एक "हाथों का नहीं घर" है। लेकिन पहले व्यक्ति को देह में किए गए कार्यों को प्राप्त करने के लिए मसीह के सामने उपस्थित होना चाहिए।

एक "नई सृष्टि" मृत्यु से पाप में पुनरुत्थान और मसीह के लहू में गाड़े जाने के परिणामस्वरूप होती है, जिससे मसीह के माध्यम से दूसरों को परमेश्वर से मिलाने के लिए एक राजदूत बन जाता है। इसे अभी करो जैसे मोक्ष आज है।

- अविश्वासियों के साथ संगति में न रहें।

- आनन्दित हो जब एक भाई पश्चाताप करता है और मसीह के पास लौटता है।

- स्वयं को मसीह को देने का परिणाम वही होता है जो दूसरों के लिए सर्वोत्तम होता है।

- प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहें, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर पछतावा न करें।

- परमेश्वर अपने प्रयासों को धार्मिकता की ओर बढ़ा देगा।

सतर्क रहिये! कुछ धोखेबाज़ लोग भाई का भेष बदलकर मसीह को नहीं सिखाते

The Old Covenant, "Law", brought death. The New Covenant brings life and freedom; ultimately a transformed body into likeness of God.

Pleasures of life are the "gods" of this world and they bind the mind of the unbeliever.

The physical body is a temporary residence. The permanent residence of the spiritual body of those in Christ is a "house not made with hands." But first one must appear before Christ to receive things done in the flesh.

A "new creation" results from the resurrection from death to sin and a burial in Christ blood thereby becoming an ambassador to reconcile others to God through Christ. **Do it now** as salvation is today.

- Do not be united in fellowship with unbelievers.
- Rejoice when a brother repents and returns to Christ.
- Giving self to Christ results in doing what is best.
- Finish commitments willingly, not regretting making them.
- God will multiply one's efforts toward righteousness.
- Be alert! Some deceitful people disguise themselves.

Paradise is now in Heaven³ as evidenced by Paul being "caught up into Paradise" and heard "things which man may not utter."

Examine your faith continually so you do not fall away.

Galatians

At first glance the epistle to the Galatians appears to be addressed to Christians who were drifting back or clinging to their traditions of Judaism. Some of them were demanding Gentile Christians also accept the Old covenant doctrines which included circumcision, the requirement for a proselyte.

Author's Comment: A "righteous proselyte" is a Gentile who has converted to Judaism. He is bound to all the doctrines and precepts of the Jewish religion, and is considered a full member of the Jewish people. The proselyte is circumcised as an adult, if male, and immersed in any natural collection of water to formally effect the conversion.
(en.wikipedia.org/wiki/Proselyte)

Christians today²⁷ have their own tradition by their interpretations of scripture, then demand others to follow them to be in fellowship with them and Christ. Often these traditions are from their former religious teachings. Therefore, it is incumbent on every Christian to search Christ's message, understand what God desires, then obey through faith and trust. When man demand compliance, obedience, to his interpretations he divides Christ's Body – His Church.

Forgiveness of sins is a gift – Christ, God's Grace. A gift can be accepted or rejected but not earned.

परादीस अब स्वर्ग 3 में है जैसा कि पौलुस द्वारा "स्वर्ग में उठाए जाने" और "वे बातें जो मनुष्य नहीं कह सकता" सुनता है।

अपने विश्वास को नित्य परखते रहो, कि कहीं तुम गिर न जाओ।

गलाटियन्स

पहली नज़र में गलातियों के लिए पत्र उन ईसाइयों को संबोधित किया गया प्रतीत होता है जो यहूदी धर्म की अपनी परंपराओं से पीछे हट रहे थे या चिपके हुए थे। उनमें से कुछ अन्यजाति ईसाइयों की मांग कर रहे थे कि वे पुरानी वाचा के सिद्धांतों को भी स्वीकार करें जिसमें खतना, एक धर्मांतरण की आवश्यकता शामिल है।

लेखक की टिप्पणी: एक "धर्मी धर्मान्तरित" एक अन्यजाति है जो यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गया है। वह यहूदी धर्म के सभी सिद्धांतों और उपदेशों के लिए बाध्य है, और उसे यहूदी लोगों का पूर्ण सदस्य माना जाता है। धर्मांतरण को एक वयस्क के रूप में खतना किया जाता है, यदि पुरुष, और औपचारिक रूप से रूपांतरण को प्रभावित करने के लिए पानी के किसी भी प्राकृतिक संग्रह में डुबोया जाता है।

(en.wikipedia.org/wiki/Proselyte)

ईसाइयों की आज 27 की अपनी धर्मशास्त्र की व्याख्याओं द्वारा अपनी परंपरा है, फिर दूसरों से उनके और मसीह के साथ संगति में रहने के लिए उनका अनुसरण करने की मांग करते हैं। अक्सर ये परंपराएं उनकी पूर्व धार्मिक शिक्षाओं से होती हैं। इसलिए, यह हर ईसाई पर निर्भर है कि वह मसीह के संदेश को खोजे, समझे कि ईश्वर क्या चाहता है, फिर विश्वास और विश्वास के माध्यम से उसका पालन करें। जब मनुष्य अपनी व्याख्याओं के अनुपालन, आज्ञाकारिता की मांग करता है, तो वह मसीह के शरीर - उसके चर्च को विभाजित करता है।

पापों की क्षमा एक उपहार है - मसीह, ईश्वर की कृपा। उपहार स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन अर्जित नहीं किया जा सकता है।

नई वाचा का संदेश 10 मसीह को एक प्रायश्चित्त बलिदान के रूप में स्वीकार करना और उसके जीवन और शिक्षाओं के अनुसार उस पर विश्वास और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। "क्योंकि वे सब जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं, वे श्राप के अधीन हैं" क्योंकि कोई भी पुरानी वाचा की सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से नहीं रख सकता है। परन्तु "मसीह ने हमारे लिए शाप बनकर व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया" ... "ताकि हम विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई आत्मा प्राप्त करें।" व्यवस्था "पापों के कारण तब तक जोड़ी गई, जब तक कि वंश (यीशु) न आ जाए, जिस से प्रतिज्ञा की गई थी।"

"पवित्रशास्त्र (पुरानी वाचा) ने सब कुछ पाप के तहत कैद कर दिया, ताकि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा वादा उन लोगों को दिया जा सके जो विश्वास करते हैं। अब विश्वास (मसीह) के आने से पहले, हमें कानून के तहत कैद में रखा गया था, जब तक कि आने वाले विश्वास का खुलासा नहीं हो जाता। सो तब तक मसीह के आने तक व्यवस्था हमारा रक्षक था, कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरें। परन्तु अब वह विश्वास आ गया है, हम अब किसी रक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम सब मसीह यीशु में परमेश्वर की सन्तान हो। क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया था, उन्होंने मसीह को पहिन लिया है। 2 न यहूदी, न यूनानी, न दास, न स्वतन्त्र, न नर न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में

The New Covenant message ¹⁰ is accepting Christ as one's atoning sacrifice and living according to His life and teachings through faith in Him and obedience to His commands. "For all who rely on works of the law are under a curse" for one cannot keep all the Old Covenant Laws perfectly. But "Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us" ... "so, that we might receive the promised Spirit through faith." The Law "was added because of sins until the offspring (Jesus) should come to whom the promise had been made."

"The Scripture (the Old Covenant) imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Now before faith came (Christ), we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian, for in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as **were baptized into Christ have put on Christ.** ²

There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise." (3:22-29) Christ's gift of forgiveness and salvation is not restricted by nationality, race or gender.

"But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more?" (Galatians 4:9)

"For freedom Christ has set us free; **stand firm** therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Look: I, Paul, say to you that if you accept circumcision (accept reliance on Moses – another gospel), Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision (becoming bound by its doctrines and precepts) that he is obligated to keep the whole law. **You are severed from Christ**, you who would be justified by the law; **you have fallen away from grace.**" (Galatians 5:1-4)

As "sons" of God, **do not follow the desires of flesh** ¹⁷ for those who do such things will not inherit the kingdom of

God. These desires include

- sexual immorality
- impurity
- sensuality
- idolatry
- sorcery

एक हो। और यदि तुम मसीह के हो, तो इब्राहीम की सन्तान और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो।" (3):

"लेकिन अब जब आप भगवान को जान गए हैं, या बल्कि भगवान द्वारा जाने जाने के लिए, आप फिर से दुनिया के कमजोर और बेकार प्रारंभिक सिद्धांतों की ओर कैसे लौट सकते हैं, जिनके दास आप एक बार फिर बनना चाहते हैं?" (गलतियों 4:9)

"स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है; इसलिए दृढ़ रहो, और फिर से गुलामी के जुए में न झुको। देखो: मैं, पॉल, तुमसे कहता हूँ कि यदि आप खतना स्वीकार करते हैं (मूसा पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं - एक और सुसमाचार), तो मसीह आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। मैं हर उस व्यक्ति को फिर से गवाही देता हूँ जो खतना स्वीकार करता है (उसके सिद्धांतों और उपदेशों से बंधे हुए) कि वह पूरे कानून को रखने के लिए बाध्य है। तुम मसीह से अलग हो गए हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाते; तू अनुग्रह से दूर हो गया है।" (गलतियों 5:1-4)

परमेश्वर के "पुत्रों" के रूप में, मांस की इच्छाओं का पालन न करें ¹⁷ क्योंकि जो लोग ऐसे काम करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इन इच्छाओं में शामिल हैं:

- यौन अनैतिकता
- अपवित्रता
- कामुकता
- मूर्ति पूजा
- टोना
- शत्रुता
- कलह
- डाह करना
- क्रोध प्रदर्शन
- प्रतिद्वंद्विता
- मतभेद
- डिवीजनों
- ईर्ष्या
- मद्यपान

व्यभिचार

लेकिन "परमेश्वर के पुत्र" के रूप में, विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से, आत्मा के फल पैदा करने वाला जीवन जीते हैं: जो हैं:

- प्यार
- हर्ष
- शांति
- धैर्य
- दयालुता
- भलाई
- भक्ति
- नम्रता
- आत्म - संयम

enmity
strife
jealousy
fits of anger
rivalries
dissensions
divisions
envy
drunkenness

orgies
But as “sons of God”, through faith and obedience, live a life producing fruit of Spirit: which are:

Love
joy
peace
patience
kindness
goodness
faithfulness
gentleness
self-control

Those in Christ are to gently restore a fellow Christian caught up in any sin
Those in Christ are to gently restore a fellow Christian caught up in any sin

Those who were taught and accepted God’s gift – Christ’s life, death, burial, resurrection, ascension, teachings and the life while on earth are obligated to take care of the needs of proclaimers of Gospel.

The life you live is the seed you sow. Therefore, the seed of fleshly desire will reap corruption. Whereas the seed of the spirit reaps eternal life.

Ephesians

God created man in His nature, image and likeness with the ability to choose. Knowing that ultimately His creation would choose their desires over His commands. **He predestined, planned in advance**, a way to reconcile them to Him. So, Deity ¹⁴ in the form of a human, Jesus - the Christ, would become the atoning sacrifice as the gift for forgiveness. Then any Jew or Gentile who chose to accept His gift by trust and obedience to Christ were put **in Him** - His Church, His Body. It is **in Him** one is forgiven, redeemed and reconciled - God’s mystery ⁵ from the beginning. So, at just the perfect time during the last age, the time following the fulfillment of the Old Covenant, all mankind would have the opportunity to have their sins forgiven and salvation by obedience to Christ’s Gospel.

जो मसीह में हैं उन्हें किसी भी पाप में फँसे एक संगी मसीही को धीरे से पुनर्स्थापित करना है।

जिन्हें सिखाया गया और परमेश्वर के उपहार को स्वीकार किया गया - मसीह का जीवन, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, शिक्षा और पृथ्वी पर जीवन, सुसमाचार के उद्घोषकों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए बाध्य हैं।

आप जो जीवन जीते हैं वह वह बीज है जो आप बोते हैं। इसलिए, शारीरिक इच्छा का बीज भ्रष्टाचार की फसल काटेगा। जबकि आत्मा का बीज अनन्त जीवन प्राप्त करता है।

इफिसियों

परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रकृति, छवि और समानता में चुनने की क्षमता के साथ बनाया। यह जानते हुए कि अंततः उसकी सृष्टि उसकी आज्ञाओं के ऊपर उनकी इच्छाओं को चुनेगी। उसने पहले से तय किया, पहले से योजना बनाई, उन्हें अपने साथ मिलाने का एक तरीका। तो, मानव के रूप में देवता 14, यीशु - मसीह, क्षमा के उपहार के रूप में प्रायश्चित्त बलिदान बन जाएगा। फिर कोई भी यहूदी या अन्यजाति जिसने मसीह के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा उसके उपहार को स्वीकार करने का विकल्प चुना, उसे - उसकी गिरजाघर, उसकी देह में डाल दिया गया। यह उसी में है जिसे क्षमा किया जाता है, छुड़ाया जाता है और मेल-मिलाप किया जाता है - शुरुआत से ही भगवान का रहस्य 5। इसलिए, अंतिम युग के दौरान, पुरानी वाचा की पूर्ति के बाद के समय में, सभी मानवजाति के पास मसीह के सुसमाचार की आज्ञाकारिता के द्वारा अपने पापों को क्षमा करने और उद्धार पाने का अवसर होगा। वे जो मसीह में हैं:

पाप मुक्ति
एकता
एक विरासत
आशा
भगवान की आत्मा तक पहुंच
भगवान के साथ रहने की जगह
अनन्त जीवन

ये छुड़ाए गए लोगों को एकजुट होना है, परमेश्वर के स्वभाव और समानता में परिपक्व होने का प्रयास करना है:

विनीत
सज्जन
मरीज़
कृपालु
प्यारा
सच बोलना
किसी जरूरतमंद के साथ बांटना ईमानदारी से काम करना
कपटपूर्ण इच्छाओं को दूर करना
क्रोधित होने पर पाप नहीं करना

Those IN CHRIST have:

- Redemption
- Unity
- An inheritance
- Hope
- Access to the Spirit of God
- Dwelling place with God
- Eternal life

These redeemed are to be united, striving to mature into God's nature and likeness

- Humble
- Gentle
- Patient
- Merciful
- Loving
- Speaking truth
- Sharing with anyone in need
- Doing honest work
- Putting off deceitful desires
- Not sinning when angry
- Not stealing
- Avoiding
 - sexual immorality
 - filthy and foolish talk
 - crude and obscene jokes

When Christ ascended, He gave to some specific functions: ¹

- a. Apostles, eye witnesses of the resurrected Christ - to announce the Good News that the Savior and His gift of forgiveness and salvation is available to all who accept His gift.
- b. Prophets to give God's revelation received from the Holy Spirit.
- c. Evangelists to proclaim the Good News, Christ, to the lost.
- d. Pastors and Teachers – to guard, watch, teach and guide brethren to maturity and unity in Christ, not opinion

However, all **in Him** are to:

- a. Observe how they live their spiritual life
- b. Withstand fleshly body desires
- c. Understand God's will
- d. Be filled with God's Spirit – His nature
- e. Put the needs of their brethren above personal desires

For protection against dark powers of Satan, they must surround themselves with God and His armor which is:

- a. Truth
- b. Readiness of the gospel
- c. Faith
- d. Word of God
- e. Salvation

चोरी नहीं

बचना

- यौन अनैतिकता
- गंदी और मूर्खतापूर्ण बात
- कच्चे और अश्लील चुटकुले

जब मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तो उसने कुछ विशिष्ट कार्यों को दिया: 1

- e. प्रेरितों, पुनरुत्थित मसीह के चश्मदीद गवाह - शुभ समाचार की घोषणा करने के लिए कि उद्धारकर्ता और उसका क्षमा और उद्धार का उपहार उन सभी के लिए उपलब्ध है जो उसके उपहार को स्वीकार करते हैं।
- f. नबियोंपवित्र आत्मा से प्राप्त परमेश्वर के रहस्योद्घाटन को देने के लिए।
- g. प्रचारकों खोए हुआओं को सुसमाचार, क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए।
- h. पादरी और शिक्षक- मसीह में परिपक्वता और एकता के लिए भाइयों की रक्षा करना, देखना, सिखाना और मार्गदर्शन करना, राय नहीं।

हालाँकि, उसमें सभी हैं:

- a. देखें कि वे अपना आध्यात्मिक जीवन कैसे जीते हैं
- f. शारीरिक शारीरिक इच्छाओं का सामना करें
- g. भगवान की इच्छा को समझें
- h. परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ - उसका स्वभाव
- i. अपने भाइयों की जरूरतों को व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखें

शैतान की काली शक्तियों से सुरक्षा के लिए, उन्हें स्वयं को परमेश्वर और उसके कवच से घेर लेना चाहिए जो है:

- g. सत्य
- h. सुसमाचार की तैयारी
- i. श्रद्धा
- j. परमेश्वर का वचन
- k. मोक्ष
- l. प्रार्थना

ईसाइयों के कुछ समूहों को विशेष निर्देश दिए गए थे:

- पत्नियों- आदर, पतियों का सम्मान करें और वही करें जो भगवान को भाता है
- पति- पत्नी की शारीरिक और आध्यात्मिक जरूरतों के लिए प्रदान करें
- बच्चे- ध्यान से सुनें, किसी आदेश या अधिकार पर ध्यान दें
- बंधुआ सेवक, एक पूरी तरह से दूसरे को सौंप दिया गया (ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें नियोक्ता भी शामिल है) - आप मसीह की तरह सेवा करें, आंखों की सेवा नहीं बल्कि दिल से भगवान की इच्छा पूरी करें।

सभी ईसाईकरेंगे:

- मसीह की देह के लिए आवश्यक कार्य करें
- मसीह और उसके प्रेरितों की शिक्षा का पालन करें
- ईश्वर को प्रसन्न करने वाले अच्छे कार्य करें
- पुनरुत्थित मसीह, उसके जीवन और उसके संदेश का प्रचार करें

f. Prayer

Specific instructions were given to certain groups of Christians:

Wives – honor, respect husbands and do what pleases God

Husbands – provide for wife's physical and spiritual needs

Children – listen attentively, heed to a command or authority

Bondservants, one completely given over to another (would appear to include employer) – serve as you would Christ, not eyeservice but doing the will of God from the heart.

All Christians are to:

Perform functions needed by the Body of Christ

Obeys the teaching of Christ and His apostles

Do good works pleasing to God

Proclaim the resurrected Christ, His life and His message

Philippians

The Christians are partners of the gospel. In this case Paul and the Philippians. All Christians everywhere are to encourage evangelists and provide for their physical needs as they proclaim the gospel. Visiting them where they work is an excellent means of encouragement and a way to communicate the congregations love and concern for the dedicated servant who suffers many hardships as he proclaims Christ.

Paul, as today's evangelists should do, sent his thanks, love and concern to the Philippians. He encouraged them to live a life worthy of the gospel of Christ, to abound with knowledge to discern what is pure and blameless and to continue living a life pleasing to God:

- Be united ²⁹.
- Do nothing out of selfish ambition.
- Look to what is best for others.
- Do all things without grumbling or disputing.
- Hold fast to the word of life.
- Diligently strive to attain the goal of Eternal Life in Heaven with God.
- Watching and observing those enemies of Christ who try to convince you to return to your former way of life.
- Servants of Christ should agree in the lord - not quarrel.
- Do not worry or be anxious about the physical or spiritual.

फिलिप्पियों

ईसाई सुसमाचार के भागीदार हैं। इस मामले में पॉल और फिलिप्पियों। हर जगह सभी ईसाईयों को सुसमाचार प्रचार करने वालों को प्रोत्साहित करना है और जब वे सुसमाचार की घोषणा करते हैं तो उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना है। जहां वे काम करते हैं वहां उनका दौरा करना प्रोत्साहन का एक उत्कृष्ट माध्यम है और समर्पित सेवक के लिए मण्डली के प्रेम और चिंता को संप्रेषित करने का एक तरीका है जो कई कठिनाइयों को झेलता है जब वह मसीह की घोषणा करता है।

पौलुस ने, जैसा कि आज के प्रचारकों को करना चाहिए, उसने अपना धन्यवाद, प्रेम और सरोकार फिलिप्पियों को भेजा। उसने उन्हें मसीह के सुसमाचार के योग्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया, ज्ञान से भरपूर होने के लिए जो शुद्ध और निर्दोष है और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते रहें:

- एकजुट रहें 29.
- स्वार्थ के लिए कुछ भी न करें।
- देखें कि दूसरों के लिए सबसे अच्छा क्या है।
- बड़बड़ाहट या विवाद के बिना सब कुछ करो।
- जीवन के वचन को थामे रहो।
- परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनन्त जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगन से प्रयास करें।
- मसीह के उन शत्रुओं को देखना और उनका अवलोकन करना जो आपको अपने पुराने जीवन में लौटने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं।
- मसीह के सेवकों को प्रभु में सहमत होना चाहिए - झगड़ा नहीं।
- भौतिक या आध्यात्मिक के बारे में चिंता या चिंता न करें।
- राय और व्यक्तिगत व्याख्याओं पर बहस न करें।

"अंत में भाइयो, जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो न्यायपूर्ण है, जो पवित्र है, जो प्यारा है, जो प्रशंसनीय है, यदि कोई श्रेष्ठता है, यदि कोई प्रशंसा के योग्य है, तो इन बातों पर विचार करें। जो कुछ तू ने मुझ में सीखा, और ग्रहण किया, और सुना और देखा है, उसी का पालन करना, और शान्ति का परमेश्वर तेरे संग रहेगा।" (4:8-9)

एक कलीसिया को अपने प्रचारकों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने प्यार और चिंता को भी व्यक्त करना चाहिए, ताकि वह महसूस न करे कि वह अकेला है।

कुलुस्सियों

एक ईसाई को मसीह की इच्छा के ज्ञान से भरा होना चाहिए और योग्य जीवन जीने और फल देने में सक्षम होना चाहिए। मसीह ने उन लोगों को छुटकारा दिया है जिन्होंने आज्ञाकारिता के माध्यम से अपना भरोसा अंधेरे के क्षेत्र से - शैतान के निवास स्थान से रखा है। और उन्हें मसीह के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा क्षमा करके मसीह 1 के राज्य में स्थानांतरित कर दिया।

- Do not argue over opinions and personal interpretations.

“Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.” (4:8-9)

A congregation should provide for their evangelists' physical needs but also express their love and concern, so he does not feel he is alone.

Colossians

A Christian needs to be filled with the knowledge of Christ's will and be able to live worthy and bear fruit. Christ has delivered those who have put their trust through obedience from the domain of darkness-Satan's residence. And transferred them to the Kingdom of Christ ¹ by forgiveness through Christ atoning sacrifice.

Christ is the exact image and mystery of God ⁵

- All things were created by and through Him in Heaven and on earth.
- He holds all things together.
- God dwells in Him.
- He is reconciling all things to himself through His blood sacrifice. **IF** Christians continue in faith not moving away from the Gospel, He will make them holy. By implication those who do not continue in faith have moved away from Christ and will not be made holy.
- Christ is the mystery ⁵ hidden from Jew and Gentile. For in Him there is opportunity of forgiveness and redemption.

Warning to Christians

- Do not allow human traditions ²² to deceive you and make you a captive of Satan. Remember Christ is deity. He dwells in Christians as they have been circumcised spiritually by the removal of the body of sin and buried in Christ's blood known as baptism or immersion. After which God forgave their sins, he resurrected them and put them in the Kingdom of Christ- - His Body, His Church.
- The regulations of festivals and things not to eat or drink are of the earthly Old Covenant which was only a shadow ²¹ of the better

मसीह परमेश्वर की सटीक छवि और रहस्य है 5

- सभी चीजें उसके द्वारा और उसके द्वारा स्वर्ग में और पृथ्वी पर बनाई गई थीं।
- वह सभी चीजों को एक साथ रखता है।
- उसमें भगवान वास करते हैं।
- वह अपने लहू बलिदान के द्वारा सभी चीजों का अपने साथ मेल कर रहा है। यदि ईसाई विश्वास में बने रहें और सुसमाचार से दूर न जाएं, तो वह उन्हें पवित्र बना देगा। निहितार्थ के द्वारा जो विश्वास में बने नहीं रहते वे मसीह से दूर चले गए हैं और उन्हें पवित्र नहीं बनाया जाएगा।
- यहूदी और अन्यजातियों से छिपा हुआ रहस्य 5 मसीह है। क्योंकि उसी में क्षमा और छुटकारे का अवसर है।

ईसाइयों को चेतावनी

- मानव परंपराओं 22 को आपको धोखा देने और आपको शैतान का बंदी बनाने की अनुमति न दें। याद रखें कि मसीह देवता है। वह ईसाइयों में रहता है क्योंकि उनका खतना आध्यात्मिक रूप से पाप के शरीर को हटाने और मसीह के रक्त में दफनाया गया है जिसे बपतिस्मा या विसर्जन के रूप में जाना जाता है। जिसके बाद भगवान ने उनके पापों को क्षमा कर दिया, उन्होंने उन्हें पुनर्जीवित किया और उन्हें मसीह के राज्य में डाल दिया- - उनका शरीर, उनका चर्च।
- त्योहारों और खाने-पीने की चीजों के नियम सांसारिक पुरानी वाचा के हैं जो बेहतर स्वर्गीय वाचा की केवल छाया 21 थी। यह स्वर्गीय वाचा सीधे यीशु - मानव शरीर में परमेश्वर से आएगी।
- आपको पवित्र बनाने के लिए आत्म-निंदा, तपस्या पर भरोसा मत करो। पवित्रता मसीह में होने से आती है।

द न्यू क्रिएचर - वन इन क्राइस्ट

ईसाइयों को खुद से छुटकारा पाना चाहिए

- सांसारिक यौन और अशुद्ध जुनून
- लोभ
- क्रोध
- द्वेष
- बदनामी
- अश्लील बात
- लेटा हुआ

एक नए आध्यात्मिक व्यक्ति बनें। मसीह के रूप में जियो 16 प्रेम में जीओ जो सभी अच्छी चीजों को एक साथ बांध देगा। परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान उत्पन्न करता है

- अनुकंपा दिल
- दयालुता
- विनम्रता
- नम्रता
- धैर्य

मसीह के नाम से और उसके अधिकार से एक दूसरे को सिखाओ, समझाओ और प्रोत्साहित करो। 12

Heavenly covenant. This heavenly covenant would come directly from Jesus - God in a human body.

- Do not rely on self-abasement, asceticism, to make you holy. Holiness comes from being in Christ.

The New Creature – One In Christ

Christians must rid themselves of

- Earthly sexual and impure passions
- Covetousness
- Anger
- Malice
- Slander
- Obscene talk
- Lying

Become a new spiritual person. Live as Christ lived¹⁶ in love which will bind all good things together.

Knowledge of God's will produce

- Compassionate hearts
- Kindness
- Humility
- Meekness
- Patience

Teach, admonish and encourage one another in the name of and by the authority of Christ.¹²

Treatment of others is to be based on what is best for the relationship.

Wives, husbands, children, bondservants and masters are to treat all in the manner and love of Christ who is Lord of all.

1 Thessalonians

Those in Christ should be examples of faith, labor of love and steadfastness. They are to stay alert to Satan's temptations and encourage one another while doing the will of God.

The Gospel proclaimers

- Proclaim in times of trials and conflicts
- Are to be aware of those who preach for money, power or prestige.
- Must not be focused on what pleases the hearers
- Will be tested
- Work so as not to be a burden to others
- Exhort and encourage
- Aspire to live quietly and mind your own affairs

Resurrection of the Christian dead

The time of the Second coming of Christ, the resurrection, is unknown. But when it occurs the bodies of Christians in the grave will be resurrected and transformed to an immortal spirit

दूसरों का इलाज इस बात पर आधारित होना चाहिए कि रिश्ते के लिए सबसे अच्छा क्या है।

पत्नियों, पतियों, बच्चों, दासों और स्वामियों को सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए और मसीह के प्रेम के रूप में करना चाहिए जो सभी का प्रभु है।

1 थिस्सलुनीकियों

जो मसीह में हैं, उन्हें विश्वास, प्रेम के परिश्रम और दृढ़ता के उदाहरण होने चाहिए। उन्हें शैतान के प्रलोभनों के प्रति सचेत रहना है और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है।

सुसमाचार के उद्घोषक

- परीक्षणों और संघर्षों के समय में उद्घोषणा
- धन, शक्ति या प्रतिष्ठा के लिए उपदेश देने वालों से सावधान रहना है।
- श्रोताओं को जो अच्छा लगता है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए
- परीक्षण किया जाएगा
- दूसरों पर बोझ न बनने के लिए काम करें
- प्रोत्साहित करें और प्रोत्साहित करें
- चुपचाप जीने और अपने मामलों पर ध्यान देने की ख्वाहिश

ईसाई मृतकों का पुनरुत्थान

मसीह के दूसरे आगमन का समय, पुनरुत्थान, अज्ञात है। लेकिन जब ऐसा होगा तो कब्र में ईसाइयों के शरीर पुनर्जीवित हो जाएंगे और अमर आत्मा 3 शरीर में बदल जाएंगे और बादलों में मसीह से मिलेंगे। तब मसीह में रहने वाले उनके साथ जुड़ेंगे।

सम्मान और सम्मान

- उनका सम्मान करें जो अपना जीवन मसीह के कार्य के लिए समर्पित करते हैं
- शांति से जिएं संघर्ष नहीं
- प्रोत्साहित करें, प्रार्थना करें, आनन्दित हों और धैर्य रखें
- अच्छा करने के तरीके खोजें
- हर हाल में धन्यवाद देना
- तन, मन और आत्मा को निर्दोष रखें

2 थिस्सलुनीकियों

मसीह की वापसी के बारे में अफवाहों से चिंतित न हों। जब तक शैतान नाश होने वालों को धोखा नहीं देता, तब तक मसीह फिर नहीं आएगा क्योंकि वे उद्धार पाने के लिए सत्य से प्रेम करने से इंकार करते हैं। वह अपनी शक्ति और नकली संकेतों और चमत्कारों से दूसरों के माध्यम से काम करके धोखा देगा। जब मसीह आएगा, तो वह उन लोगों से प्रतिशोध, अनन्त मृत्यु के साथ न्याय करेगा, जिन्होंने उसके लोगों को सताया था।

चूँकि मसीह के दूसरे आगमन का समय अज्ञात है, इसलिए सुसमाचार की घोषणा करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए और उसकी महिमा करते हुए जीवन व्यतीत करते हुए, मसीह के सेवकों के रूप में बने रहें। उन

³ body and meet Christ in the clouds. Then the living in Christ will join them.

Honor and respect

- Esteem those who devote their life to the work of Christ
- Live in peace not conflict
- Encourage, pray, rejoice and be patient
- Seek ways to do good
- Give Thanks in all circumstances
- Keep body, soul and spirit blameless

2 Thessalonians

Do not be alarmed by rumors regarding Christ return. Christ will not come again until Satan deceives those perishing because **they refuse to love the truth** in order to be saved. He will deceive by working through others by his power and fake signs and wonders. When Christ comes, He will administer justice with a vengeance, eternal death, on those who persecuted His people.

Since the time of Christ's Second Coming is unknown, continue as servants of Christ by proclaiming the Gospel, doing good works and living a life glorifying Him. Do not feed or supply necessities of life to those who are able but refuse to provide for themselves. In fact, do not associate, have fellowship, with them. But do not treat them as enemies.

1 Timothy

Confront those who teach Christians must keep traditions of their former religious beliefs. Beliefs contrary to those in the Bible - Christ's and the apostle's teachings. They have **turned away and gone back** to their former religious beliefs. Make intercessions and prayers, for all people, including rulers of countries. Pray without the stain of unforgiven sin – holy hands. Teach women not to call attention to the sensual by dressing that entices, as do the rich and influential. Men who desire to lead ¹ their brethren to become righteous servants desire a good or noble **work – not an office** of power and prestige. ¹ Their work is to help those in Christ to mature into the likeness of God, by teaching and guiding them to do God's will. They "must be well thought of by outsiders, so that they may not fall into disgrace, into a snare of the devil."

Some Christians will devote themselves to deceptive lies. Thus they sear their consciences with such

लोगों को न खिलाएं या जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति न करें जो सक्षम हैं लेकिन खुद को प्रदान करने से इनकार करते हैं। वास्तव में, उनके साथ संगति न करें, संगति करें। लेकिन उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार न करें।

1 तीमुथियुस

ईसाइयों को पढ़ाने वालों का सामना करना चाहिए, उन्हें अपने पूर्व धार्मिक विश्वासों की परंपराओं का पालन करना चाहिए। बाइबल में उन लोगों के विपरीत विश्वास - मसीह और प्रेरित की शिक्षाएँ। वे दूर हो गए हैं और अपने पूर्व धार्मिक विश्वासों में वापस चले गए हैं।

देशों के शासकों सहित सभी लोगों के लिए हिमायत और प्रार्थना करें। क्षमा न किए गए पाप के दाग के बिना प्रार्थना करें - पवित्र हाथ।

अमीरों और प्रभावशाली लोगों की तरह, महिलाओं को लुभाने वाले कपड़े पहनकर कामुकता पर ध्यान न देना सिखाएं।

जो पुरुष अपने भाइयों को धर्मी सेवक बनने के लिए नेतृत्व करना चाहते हैं, वे एक अच्छे या नेक काम की इच्छा रखते हैं - सत्ता और प्रतिष्ठा का पद नहीं। ¹ उनका काम यह है कि जो मसीह में हैं, उन्हें परमेश्वर के स्वरूप में परिपक्व होने में सहायता दें, और उन्हें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की शिक्षा और मार्गदर्शन दें। वे "बाहर के लोगों के द्वारा सुविचारित होंगे, कि वे बदनाम होकर शैतान के फन्दे में न पड़ें।"

कुछ ईसाई खुद को भ्रमक झूठ के लिए समर्पित कर देंगे। इस प्रकार वे अपने विवेक को ऐसी प्रथाओं से खोजते हैं जैसे किसी को शादी करने से मना करना और कुछ खाने से परहेज करना।

वृद्ध पुरुष या स्त्री को डांटें नहीं।

बच्चों और पोते-पोतियों को अपने जरूरतमंद माता-पिता की देखभाल करनी चाहिए

कुछ मसीह के संदेश को छोड़कर व्यक्तिगत लाभ के लिए उपदेश देते हैं, जो बाइबल में नहीं मिलते। ²⁷

जो लोग अमीर होने की इच्छा रखते हैं, वे भगवान के बजाय पैसे की अनिश्चितताओं पर अपनी आशा रखते हैं।

अमीरों को उदार होना चाहिए और जरूरतमंदों के साथ बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

2 तीमुथियुस

हमेशा परमेश्वर के सेवकों को प्रोत्साहित करें, विशेषकर उन्हें जो घर से दूर मसीह का प्रचार करते हैं।

एक ईसाई का शाश्वत भाग्य ³ सरल है:

"यदि हम मसीह के साथ मरे हैं, हम भी उसके साथ रहेंगे;

यदि हम सहते हैं, हम भी उसके साथ राज्य करेंगे;

यदि हम उसका इन्कार करते हैं, वह भी हमारा इन्कार करेगा;

यदि हम अविश्वासी हैं, वह विश्वासयोग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इन्कार नहीं कर सकता।"

शब्दों और अपनी व्यक्तिगत व्याख्या के बारे में झगड़ा न करें। ²² ईसाई भाई मसीह के शरीर से विदा हो सकते हैं।

practices as forbidding one to marry and to abstain from eating certain food.

Do not rebuke the aged man or woman.

Children and grandchildren must take care of their needy parents

Some teach for personal gain messages other than those of Christ, not found in the Bible. ²⁷

People who desire to get rich set their hope on the uncertainties of money rather than God.

The rich should be generous and ready to share with those in need.

2 Timothy

Always encourage servants of God, especially those away from home proclaiming Christ.

A Christian's eternal destiny ³ is simple:

"If we have died with Christ, we will also live with Him;

if we endure, we will also reign with Him;

if we deny Him, he also will deny us;

if we are faithless, He remains faithful for He cannot deny himself."

Do not quarrel about words and your personal interpretation. ²²

Christian brothers **can depart** from the body of Christ.

There are some in Christ's Body who turn from spiritual uncleanness- vessels of dishonor - to righteous – vessels for honorable use so they can serve God.

Some brothers will be lovers of self, greedy, proud and arrogant. They may have the appearance of Godliness - You should have nothing to do with them.

Brothers and sisters who live a Godly life in Christ will be preserved.

All in Christ who life faithfully, while performing God's will, have the assurance of Heaven.

Desires of Christians, whose lives are not under control revert back to their former worldly life.

All Scripture is God-breathed ⁶ and is useful for teaching and training.

Recognize and be aware of those who oppose Christ and His message.

Titus

Elders must confront teachers who are greedy for money, power or prestige. They teach myths ²⁵ and salvation based upon something other than Christ causing brothers away from Christ.

Teach

मसीह के शरीर में कुछ ऐसे हैं जो आध्यात्मिक अशुद्धता से - अपमान के बर्तन - धर्मी - सम्मानजनक उपयोग के लिए जहाजों में बदल जाते हैं ताकि वे भगवान की सेवा कर सकें।

कुछ भाई स्वयं के प्रेमी, लालची, अभिमानी और अभिमानी होंगे। उनमें भगवत्ता का आभास हो सकता है - आपको उनसे कोई लेना-देना नहीं है।

मसीह में एक ईश्वरीय जीवन जीने वाले भाइयों और बहनों को संरक्षित किया जाएगा।

मसीह में सभी जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके पास स्वर्ग का आश्वासन है।

ईसाइयों की इच्छाएँ, जिनका जीवन नियंत्रण में नहीं है, अपने पूर्व सांसारिक जीवन में वापस लौट आती हैं।

सभी पवित्रशास्त्र ईश्वर-सांसित ⁶ है और शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है।

उन लोगों को पहचानें और जागरूक रहें जो मसीह और उसके संदेश का विरोध करते हैं।

टाइटस

प्राचीनों को उन शिक्षकों का सामना करना चाहिए जो धन, शक्ति या प्रतिष्ठा के लालची हैं। वे मिथक ²⁵ और उद्धार मसीह के अलावा किसी और चीज़ पर आधारित सिखाते हैं जो भाइयों को मसीह से दूर कर देता है।

सिखाना

- वृद्ध पुरुष - आत्मसंयमी होना, विश्वास में दृढ़ होना, स्पष्ट विचारक।
- बूढ़ी औरतें- व्यवहार में श्रद्धावान, आत्मसंयमी, निन्दा न करने वाली, मद्यपान न करने वाली और छोटी स्त्रियों को अपने पति और बच्चों के प्रति स्नेही, आत्मसंयमी, घर की रखवाली करने की शिक्षा देना।
- युवा पुरुष - आत्मसंयमी, अच्छे कार्यों का आदर्श, सत्यनिष्ठा और गरिमा है।
- कर्मचारी - आपके नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्य को बिना बहस या शिकायत के निष्पादित करें और नियोक्ता से संबंधित न लें।

मसीह पृथ्वी पर क्षमा और उद्धार लाने के लिए आए, जबकि उन्हें अभक्ति और सांसारिक जुनून को त्यागने की शिक्षा दी। वह दया और आज्ञाकारिता से बचाता है - कामों से नहीं।

- सरकारी अधिकारियों के अधीन रहें
- अच्छे काम करने के लिए तैयार रहें
- किसी की बुराई न करें
- झगड़ा करने से बचें
- सभी लोगों के प्रति नम्र और विनम्र रहें
- अपने आप को अच्छे कार्यों के लिए समर्पित करें
- यहूदी जैसे मूर्खतापूर्ण विवादों से बचें, यह दिखाने का प्रयास करके कि एक व्यक्ति इब्राहीम के बच्चों के रूप में उनकी वंशावली द्वारा "ईश्वर का चुना हुआ" है।

फिलेमोन

अपने विश्वास को बाँटने से सुननेवालों को ताज़गी मिलती है।

- Older men – to be self-controlled, sound in faith, clear thinker.
- Older women – to be reverent in behavior, self-controlled, not slanderers, not addicted to alcohol and to teach younger women to be affectionate to their husband and children, self-controlled, keepers of the home.
- Young men – Self-controlled, model of good works, have integrity and dignity.
- Employees – perform the task your employers assign without arguing or complaining and not to take what belongs to the employer.

Christ came to earth to bring forgiveness and salvation, while teaching them to renounce ungodliness and worldly passion. He saves by mercy and obedience - not by works.

- Be submissive to governmental authorities
- Be ready to perform good works
- Speak evil of no one
- Avoid quarreling
- Be gentle and courtesy to all people
- Devote yourself to good works
- Avoid foolish controversies such as the Jews do by attempting to show one is "God's chosen" by their genealogy as children of Abraham.

Philemon

Sharing your faith results in hearers being refreshed. Because of your life and love for the Gospel, God can and often uses undesirable events to be great influence on others. Grateful and glorify God for using you to do His will.

Hebrews

Adam and Eve were created as righteous earthly beings and placed in a paradise to live in God's presence. But they

- chose** to listen to the lie of Satan, a rebellious angel;
- desired** Satan's promise;
- rejected** God's commands;
- received** the consequences of their actions – pain and death.

God revealed to Satan that an offspring of man would destroy his hold over man which is death. So, at just the perfect time Deity in a human body of Jesus chose to come to earth and live among His creation to be the only and perfect sin offering. The Father accepted Jesus' sin offering as evidenced by His resurrection - Victory over Death. Now the sins of the righteous under the

आपके जीवन और सुसमाचार के प्रति प्रेम के कारण, परमेश्वर दूसरों पर बहुत प्रभाव डालने के लिए अवांछनीय घटनाओं का उपयोग कर सकता है और अक्सर करता है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आपका उपयोग करने के लिए आभारी और महिमामंडित करें।

इत्रियों

आदम और हव्वा को धर्मि सांसारिक प्राणियों के रूप में बनाया गया था और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए एक परादीस में रखा गया था। लेकिन वे

क) शैतान के झूठ को सुनना चुना, जो एक विद्रोही दूत था;

ख) शैतान की प्रतिज्ञा को चाहा;

ग) परमेश्वर की आज्ञाओं को अस्वीकार कर दिया;

घ) उनके कार्यों के परिणाम प्राप्त हुए - दर्द और मृत्यु।

परमेश्वर ने शैतान को बताया कि मनुष्य की एक संतान मनुष्य पर उसके अधिकार को नष्ट कर देगी जो कि मृत्यु है। इसलिए, बिल्कुल सही समय पर, यीशु के मानव शरीर में देवता ने पृथ्वी पर आने और अपनी सृष्टि के बीच रहने का एकमात्र और पूर्ण पापबलि होने का चुनाव किया। पिता ने यीशु के पापबलि को उनके पुनरुत्थान - मृत्यु पर विजय के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। अब पुरानी वाचा के अधीन धर्मियों के पाप क्षमा किए गए। इसके बाद क्षमा, छुटकारे और मेल-मिलाप उन सभी के लिए उपलब्ध हो गए जो आज्ञाकारिता के द्वारा क्षमा चाहते हैं।

इस मेल-मिलाप की प्रक्रिया 10 का वर्णन पवित्र शास्त्र में कई जगहों पर किया गया है, जो यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पहले पिन्तेकुस्त से शुरू होता है, जैसा कि प्रेरितों के काम 2 में दर्ज है। उपज देने का अर्थ है शैतान के झूठ को स्वीकार करना ताकि वे अपने पूर्व पापमय जीवन में वापस लौट सकें और उनके "अस्थायी सांसारिक सुखों" का आनंद उठा सकें।

इब्रानियों का लेखक क्राइस्ट चर्च में उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी जारी करता है, जो शैतान के झूठ से परीक्षा लेते हैं। जागरूक रहें, मसीह और प्रेरित की शिक्षाओं को ध्यान से सुनें अन्यथा आप बहक सकते हैं और अंततः उनके बचाने वाले अनुग्रह को अस्वीकार कर सकते हैं। सारी सृष्टि-मनुष्य, पुरानी वाचा के महायाजक और स्वर्गदूतों पर मसीह की श्रेष्ठता स्थापित करने के बाद, ईसाइयों को उनकी पूर्व गैर-बाइबिल धार्मिक शिक्षाओं पर लौटने के द्वारा विश्वासघाती बनने के बारे में चेतावनी दी जाती है।

मसीह श्रेष्ठता

परमेश्वर ने शुरू में सीधे मनुष्य से बात की और बाद में भविष्यवक्ताओं के माध्यम से। परन्तु अब, वह मसीह, उसके पुत्र के द्वारा बोलता है।

देवता 14 पुनरुत्थित मसीह, सारी सृष्टि से श्रेष्ठ है - मनुष्य और स्वर्गदूत।

मेल्कीसेदेक के आदेश पर मसीह, एक ईसाई के महायाजक, परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। एक पुजारी जो किसी की वंशावली पर निर्भर नहीं है, एक विरासत में मिली स्थिति, जैसा कि मूसा के द्वारा दी गई वाचा के तहत महायाजक थे।

old Covenant were forgiven. Thereafter forgiveness, redemption and **reconciliation became available** to all who **seek forgiveness** by obedience.

This reconciliation process ¹⁰ is described in many places in the Holy Scriptures beginning on the first Pentecost following Jesus' resurrection and ascension as recorded in Acts 2. The forgiven also have a choice to live righteously or yield to their earthly desires. Yielding means accepting Satan's lie to return to their former sinful life and enjoy their "temporary earthly pleasures".

The writer of Hebrews issues a stern warning to those in Christ's Church, who are tempted by Satan's lies. Be aware, **listen** carefully to Christ's and the apostle's teachings or you **may drift** away and ultimately reject His saving grace. Having established the superiority of Christ over all creation -man, Old Covenant High Priest and angels, Christians are warned about becoming unfaithful by returning to their former non-biblical religious teachings.

Christ Superiority

God initially spoke directly to man and later through prophets. But NOW, He speaks through Christ, His Son.

Deity ¹⁴ the resurrected Christ, is superior to all creation – man and angels.

Christ is the Mediator between God and man, a Christian's high priest, on the order of Melchizedek. A priest not dependent on one's genealogy, an inherited position, as were the High Priests under the covenant given through Moses.

The world to come – eternal life and everlasting death – are subject to Christ.

Christ is now at God's side having offered His human living body as the only sacrifice for the forgiveness of sin. By doing so, He **fulfilled the promise to Abraham** and made the Covenant made through Moses obsolete by **establishing a new covenant**. All who choose Christ through obedience will be cleansed spiritual beings when they:

- confess Jesus' deity,
- die to sin,
- are buried in His blood are put by God into Christ's Body, His Church.

Just as a cleansed physical man can become dirty again so can a cleansed spiritual man. If this were not true then there would be no need for a mediator or to warn Christians not to fall away and turn back to one's former sinful life.

आने वाला संसार - अनन्त जीवन और अनन्त मृत्यु - मसीह के अधीन है।

पाप की क्षमा के लिए एकमात्र बलिदान के रूप में अपने मानव जीवित शरीर को अर्पित करने के बाद मसीह अब परमेश्वर के पक्ष में है। ऐसा करने के द्वारा, उसने अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा को पूरा किया और एक नई वाचा की स्थापना के द्वारा मूसा के द्वारा की गई वाचा को अप्रचलित बना दिया। वे सभी जो आज्ञाकारिता के द्वारा मसीह को चुनते हैं, शुद्ध आत्मिक प्राणी होंगे जब वे:

- यीशु के ईश्वरत्व को अंगीकार करें,
- पाप के लिए मरना,
- उनके खून में दफन हैं, भगवान ने उन्हें मसीह के शरीर, उनके चर्च में डाल दिया है।

जैसे एक शुद्ध भौतिक मनुष्य फिर से गंदा हो सकता है, वैसे ही एक शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो सकता है। यदि यह सत्य नहीं होता तो किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती या ईसाइयों को चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं होती कि वे पीछे न हटें और अपने पूर्व पापी जीवन की ओर मुड़ें।

दूर गिरने के बारे में चेतावनी

एक भाई अविश्वासी दिल को रास्ता दे सकता है और परमेश्वर से दूर हो सकता है। (3:12)

सख्त मत करो अपने दिल और उसकी आवाज, उसके संदेश को अस्वीकार मत करो। (4:7)

प्रवेश करने का प्रयास करें उसके विश्राम में, स्वर्ग, ताकि तुम अवज्ञा से न गिरो। (4:11)

तेजी से पकड़ो - ढीले मत बनो- केवल मसीह की मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान को ही जानें, बल्कि उसके जीवन और उसकी समानता में परिपक्व कैसे बनें। (4:14)

उन प्रबुद्ध और क्षमाशील लोगों के लिए जो अपने पिछले पापमय जीवन में लौट आते हैं, उनके लिए मसीह के पास लौटना कठिन है। (6:4)

जानबूझकर पाप करने वालों के लिए कोई पाप बलिदान नहीं है। (10:26)

"मत फेंको आपका आत्मविश्वास जिसका एक बड़ा प्रतिफल है।" (10:34)

"मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हटे, तो मेरा मन उस से प्रसन्न न होगा। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पीछे हटते हैं और नष्ट हो जाते हैं।" (10:38 - 39क)

वे "जो विश्वास रखते हैं और अपने प्राणों की रक्षा करते हैं।" (10:39ख)

समझना - विश्वास - विश्वास - विश्वास - कार्य

कोई सुन सकता है लेकिन समझ नहीं सकता, समझ सकता है लेकिन विश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है, विश्वास करने के लिए पर्याप्त विश्वास करने और विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग भरोसा करते हैं वे अपने कार्यों से अपने विश्वास और विश्वास को साबित करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

"विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर को और अधिक ग्रहण करने योग्य बलिदान चढ़ाया।" (इब्र 11:1)

Warnings About Falling Away

A brother **could give way to an unbelieving heart** and fall away from God. (3:12)

Do not harden your heart and **do not reject** His voice, His message. (4:7)

Strive to enter into His rest, Heaven, so you **do not fall by disobedience**. (4:11)

Hold fast – don't turn loose - know only Christ's death, burial and resurrection but also His life and how to become mature in His likeness. (4:14)

For those enlightened and forgiven **who return to their prior sinful life** it is difficult for them to return to Christ. (6:4)

There is no sin sacrifice for those who **go on deliberately** (continue) **sinning**. (10:26)

“Do not throw away your confidence which has a great reward.” (10:34)

“My righteous one shall live by faith and **IF he shrinks back** my soul has no pleasure in him. But we are not of **those who shrink back** and **are destroyed**.” (10:38 – 39a)

Those “who have faith and preserve their souls.” (10:39b)

Understand -Belief – Faith – Trust - Action

One can hear but not understand, understand but not enough to believe, believe but unwilling to have sufficient faith to commit and trust. Those who trust will take action proving their faith and trust by their actions.

“By **faith** Abel **offered** to God a more acceptable sacrifice.” (Heb 11:1)

“By **faith** Abraham **obeyed** when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. (Heb 11:8)

“By **faith** Enoch was taken up so that he should not see death.” (Heb 11:5)

“By **faith** Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear

constructed an ark for the saving of his household.” (Heb 11:7)

“By **faith** he (Abraham) **went to live** in the land of promise, as in a foreign land.” (Heb 11:9)

“These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having (hope) acknowledged that they were strangers and exiles on the earth.” (Heb 11:13-14)

“By **faith** Abraham, when he was tested, **offered** up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, ‘Through Isaac shall your offspring be named.’ He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back.” (Heb 11:17-19)

“विश्वास ही से इब्राहीम ने आज्ञा मानी, जब उसे उस स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया जिसे उसे विरासत के रूप में प्राप्त करना था।

(इब्र 11:8)

“विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, कि वह मृत्यु को न देखे।” (इब्र 11:5)

“विश्वास ही से नूह ने परमेश्वर की ओर से अनदेखे कामों के विषय में चितौनी पाकर, भय के मारे अपने घराने के उद्धार के लिथे एक जहाज बनाया।” (इब्र 11:7)

“विश्वास ही से वह (इब्राहीम) प्रतिज्ञा के देश में रहने को चला गया, जैसा कि पराए देश में रहता है।” (इब्र 11:9)

“वे सब विश्वास में मर गए, और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त नहीं किया, परन्तु उन्हें देखकर और दूर से ही नमस्कार किया, और मान लिया कि वे पृथ्वी पर परदेशी और बंधुआई में हैं।” (इब्र 11:13-14)

“विश्वास ही से इब्राहीम ने परीक्षा के समय इसहाक की बलि चढ़ा दी, और जिस ने प्रतिज्ञा की या, वह अपने एकलौते पुत्र को, जिसके विषय में यह कहा गया था, कि इसहाक के द्वारा तेरे वंश का नाम होगा, बलि किया जाएगा।” वह समझता था कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिला भी सकता है, जिस से, लाक्षणिक रूप से, उसने उसे वापस प्राप्त किया।” (इब्र 11:17-19)

“विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव पर भविष्य की आशीषों का आह्वान किया।” (इब्र 11:20)

“विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के पुत्रों में से हर एक को अपनी लाठी के सिर पर दण्डवत् करके आशीर्वाद दिया।” (इब्र 11:21)

“विश्वास ही से यूसुफ ने अपने जीवन के अन्त में इस्राएलियों के निर्गमन की चर्चा की, और अपनी हड्डियों के विषय में उपदेश दिया।” (इब्र 11:22)

“विश्वास ही से मूसा जब पैदा हुआ, तो उसके माता-पिता ने तीन महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा, कि बालक सुन्दर है, और वे राजा के आदेश से न डरे।” (इब्र 11:23)

“विश्वास ही से मूसा ने बड़ा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इन्कार किया, और पाप के क्षणभंगुर सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ बुरा व्यवहार करना पसन्द किया।” (इब्र 11:24-25)

“विश्वास ही से मूसा ने राजा के कोप से न डरकर मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ स्थिर रहा।” (इब्र 11:27)

“विश्वास ही से उस ने फसह मनाया, और लोहू छिड़का।” (इब्र 11:28)

“विश्वास ही से लोगों ने लाल समुद्र पार किया, मानो सूखी भूमि पर हों।” (इब्र 11:29)

“विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न माननेवालों के साथ नाश न हुई, क्योंकि उस ने भेदियों का मित्रता से स्वागत किया था।” (इब्र 11:31”

“By **faith** Isaac **invoked** future blessings on Jacob and Esau.” (Heb 11:20)

“By **faith** Jacob, when dying, **blessed** each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff.” (Heb 11:21)

“By **faith** Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and **gave directions** concerning his bones.” (Heb 11:22)

“By **faith** Moses, when he was born, **was hidden** for three months by his parents, because they saw that the child was beautiful, and they were not afraid of the king's edict.” (Heb 11:23)

“By **faith** Moses, when he was grown up, **refused** to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin.” (Heb 11:24-25)

“By **faith** Moses **left** Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible.” (Heb 11:27)

“By **faith** he **kept** the Passover and sprinkled the blood.” (Heb 11:28)

“By **faith** the people **crossed** the Red Sea as if on dry land.” (Heb 11:29)

“By **faith** Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies.” (Heb 11:31)”

James

God does not tempt anyone. However, he allows the testing of one's faith to produce steadfastness when they remain faithful.

Temptation occurs from desire. When one gives into their desire sin occurs.

When angry, be slow to speak as wrath is not of God. Christ's message of salvation ¹⁰ when obeyed and retained in the inner being, produces faithful living and workers – not pew sitters spectators.

Christians worship when by desire take care of widows and others in need.

Treating the rich better than the poor displeased God for the poor are rich in faith and heirs of the Kingdom.

Mercy negates the punishment of justice demands.

One's actions display their degree of love and faith – no action no faith.

What is spoken can produce good or evil. So, if one cannot control what and how they speak they should not teach.

Ambition to achieve power and prestige causes jealousy and dishonor rather than gentleness, mercy and peace.

भगवान किसी को प्रलोभन नहीं देते। हालाँकि, वह किसी के विश्वास के परीक्षण की अनुमति देता है जब वे विश्वासयोग्य बने रहते हैं। प्रलोभन इच्छा से होता है। जब कोई अपनी इच्छा में देता है तो पाप होता है।

जब क्रोधित हो, तो बोलने में धीमा हो क्योंकि क्रोध ईश्वर का नहीं है। उद्धार का मसीह का संदेश 10 जब आज्ञा का पालन किया जाता है और आंतरिक अस्तित्व में बनाए रखा जाता है, तो विश्वासयोग्य जीवन और कार्यकर्ता पैदा करता है - दर्शकों को देखने के लिए नहीं।

ईसाई तब पूजा करते हैं जब इच्छा से विधवाओं और जरूरतमंदों की देखभाल करते हैं।

अमीरों के साथ बेहतर व्यवहार करना कि गरीबों ने गरीबों के लिए भगवान को नाराज कर दिया, वे विश्वास के धनी हैं और राज्य के उत्तराधिकारी हैं।

दया न्याय की मांग की सजा को नकारती है।

किसी के कार्य उनके प्रेम और विश्वास की डिग्री प्रदर्शित करते हैं - कोई कार्य नहीं कोई विश्वास नहीं।

जो बोला जाता है वह अच्छा या बुरा पैदा कर सकता है। इसलिए, यदि कोई यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे क्या और कैसे बोलते हैं, तो उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए।

शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा नम्रता, दया और शांति के बजाय ईर्ष्या और अपमान का कारण बनती है।

एक मसीही विश्वासी जो संसार के साथ अपने सम्बन्ध के द्वारा परमेश्वर के साथ अपनी वाचा का सम्बन्ध तोड़ता है, एक आत्मिक व्यभिचारी है। भगवान के साथ एक निरंतर संबंध शैतान को दूर रखता है।

किसी की बुराई न करें और न ही किसी की निन्दा करें।

लोभ से अर्जित धन ईश्वर की दोहाई देता है।

धर्मी और धर्मी लोगों को अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए दूसरों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास शपथ लेने का कोई कारण नहीं है।

भाई मसीह से दूर भटक सकते हैं। वफादार बने रहने के लिए उन्हें मदद और प्रोत्साहन की जरूरत है।

1 पीटर

मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उन सभी के लिए अनन्त जीवन की आशा है जो नया जन्म लेते हैं। वे पाप के लिए मरकर, मसीह के लहू में गाड़े जाने, एक नए आत्मिक शरीर को जीवित करने और परमेश्वर के द्वारा मसीह के राज्य में डालने के द्वारा फिर से जन्म लेते हैं।

किसी के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए परीक्षण होंगे।

भविष्यवक्ताओं ने मसीह के जीवन के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की भविष्यवाणी की थी।

जो लोग मसीह के संदेश को स्वीकार करते हैं, उन्हें स्वयं को कार्रवाई के लिए तैयार करना है क्योंकि परमेश्वर अपने सभी सेवकों से अपेक्षा करता है कि वे कार्य करें और उसकी इच्छा पूरी करें।

जैसा आपने मसीह की आज्ञाकारिता से पहले किया था वैसे ही जीना जारी न रखें। तू अपने चालचलन में पवित्र होना और परमेश्वर की महिमा करना।

A Christian who breaks his covenant relationship with God by his relationship with the world is a spiritual adulterer.

A constant relationship with God keeps the Devil away.

Do not speak evil or slander anyone.

Riches acquired by greed cry out to God.

Godly and righteous people do not need to call upon others to attest to their word. They have no reason to swear.

Brothers can wander away from Christ. They need help and encouragement to remain faithful.

1 Peter

Through the resurrection of Christ there is hope of eternal life for all who are born again. They are born again by dying to sin, being buried into Christ's blood, raised a new spiritual body and put into Christ's Kingdom by God.

Trials will occur to test one's faith.

Prophets foretold of God's Grace through Christ's life.

Those who accept Christ's message are to prepare themselves for action as God expects all His servants to work and do His will.

Do not continue living as you did before obedience to Christ. You are to be holy in your conduct and glorify God.

God foreknew, predestined, that He would be manifested through the one He would raise from the dead. Thus, faith and hope would rest upon Him. Purification comes through a rebirth from a pure, trusting and obedient heart.

Christ's life, death, burial, resurrection and ascension is the Goodnews ¹⁰ that offers forgiveness of sins to everyone TODAY and ever after. Those who accept His offer are to consume spiritual food in order to mature and grow into their salvation.

Christians as God's servants are to offer their life as a living sacrifice, as priest to proclaim God's excellencies, Christ's message of reconciliation. So, abstain from passions of the flesh.

Live in accord with governing rulers, to the demands of employers while being free in Christ.

Wives are to honor and respect their husbands for by their gentle and humble nature they may penetrate the heart of their unbelieving husband.

Husbands are to show honor to their wives by understanding their concerns and needs.

Be united ²⁹ in heart and mind with your Christian family without any desire to get even.

Prepare yourselves to explain why you are different from the majority.

परमेश्वर पहले से जानता था, पूर्वनियत, कि वह उसके द्वारा प्रकट होगा जिसे वह मरे हुआ में से जिलाएगा। इस प्रकार, विश्वास और आशा उस पर टिकी होगी।

शुद्ध, भरोसेमंद और आज्ञाकारी हृदय से पुनर्जन्म के माध्यम से शुद्धिकरण होता है।

मसीह का जीवन, मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरूत्थान और स्वर्गारोहण गुडन्यूज 10 है जो आज और उसके बाद सभी को पापों की क्षमा प्रदान करता है। जो लोग उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, उन्हें परिपक्व होने और अपने उद्धार की ओर बढ़ने के लिए आध्यात्मिक भोजन का सेवन करना चाहिए।

ईश्वर के सेवकों के रूप में ईसाइयों को अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में, पुजारी के रूप में भगवान की महानता, मसीह के मेल-मिलाप के संदेश की घोषणा करना है। अतः देह की वासनाओं से दूर रहो।

शासक शासकों के अनुसार, मसीह में स्वतन्त्र रहते हुए, नियोक्ताओं की माँगों के अनुसार जियो।

पत्नियों को अपने पतियों का सम्मान और सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे अपने सौम्य और विनम्र स्वभाव से अपने अविश्वासी पति के दिल में प्रवेश कर सकती हैं।

पतियों को चाहिए कि वे अपनी पत्नियों की चिंताओं और जरूरतों को समझकर उनका सम्मान करें।

29 अपने ईसाई परिवार के साथ दिल और दिमाग से एक हो जाएं, बिना किसी को पाने की इच्छा के।

खुद को यह समझाने के लिए तैयार करें कि आप बहुमत से अलग क्यों हैं।

मसीह ने अधोलोक में उन लोगों के लिए एक संदेश दिया, जो मर चुके लोगों की आत्माओं का निवास स्थान है।

नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और जल के माध्यम से अपने और अपने परिवार को बचाते हुए सन्दूक का निर्माण किया जो उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो मसीह के लहू में बपतिस्मा (विसर्जन) 2 के अपने कार्य के माध्यम से परमेश्वर को क्षमा करने के लिए कहते हैं।

सुसमाचार का प्रचार उन लोगों को किया जाना था जो जीवित थे लेकिन अब मर चुके हैं ताकि वे आत्मा में जी सकें।

जब आप भगवान के बच्चे के रूप में पीड़ित होते हैं, तो आप भगवान की महिमा करते हैं। एक दुष्ट कर्ता के रूप में परिणाम भुगतना, जैसे कि चोरी या हत्या, परमेश्वर की महिमा नहीं करता है।

जो पुरुष चाहते हैं, लाभ के लिए नहीं, अपना जीवन नम्रता से नेतृत्व करते हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं, अपने भाइयों को भगवान के स्वभाव में परिपक्व होने और उनके सेवकों के रूप में काम करने के लिए प्रेम और विनम्रता के उदाहरण हैं।

शैतान के एजेंटों की तलाश में हमेशा सतर्क रहें जो किसी के विश्वास को निगलने और नष्ट करने की इच्छा रखते हैं।

2 पीटर

प्रेरितों के शब्दों को सुनें क्योंकि वे प्रत्यक्षदर्शी थे

ईश्वरीय जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें ईश्वर के ज्ञान से प्राप्त होती हैं।

Christ delivered a message to those in Hades, the abode of the souls of those who have died. Noah obeyed God and built the Ark saving he and his family through water which is an example for those who call on God to forgive through their act of baptism (immersion)² in Christ's blood. The gospel was to be preached to those who were alive but now dead so they might LIVE in spirit. When you suffer as a Child of God, you glorify God. Suffering as a result as an evil doer, such as a theft or murderer, does not glorify God. Men who willing, not for gain, devote their life humbly leading, not driving, their brethren to mature in God's nature and work as His servants are examples of love and humility. Always be on alert looking for agents of the Devil who desire to devour and destroy one's faith.

Therefore, you grow in faith by growing in:

- Virtue - high moral standards
- Self-control of desires and actions
- Faithfulness
- Godly affection
- Love – God's nature

Be diligent in practicing these qualities

Christ's message as recorded in the Bible did not come from man's knowledge or his interpretation but from God.

Some brothers deny the deity of Christ. They teach for greed - money, power, fame claiming Christ was only a phantom.⁹ They are condemned.

Angels have sinned. God sent them to deepest part of Hades, *tartarus*, until Christ returns and then judgment.⁷

Some people who indulge in passion and despise authority attempt to fellowship with Christians. But their heart is trained in greed. "For if, after they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are **again entangled** in them and overcome, the last state has become worse for them than the first. For it would have been better for them never to have known the way of righteousness." (2:20-21)

God wants everyone to have the opportunity to turn from sin to Him. He is patient as time is meaningless, because He is eternal.

Some teachings are difficult for those with little knowledge of God or His will. Some perhaps by choice but others due to teachings of others who have

इसलिए, आप इसमें बढ़ते हुए विश्वास में बढ़ते हैं:

- सदाचार - उच्च नैतिक मानक
- इच्छाओं और कार्यों का आत्म-नियंत्रण
- भक्ति
- ईश्वरीय स्नेह
- प्रेम - भगवान का स्वभाव
- इन गुणों का अभ्यास करने में मेहनती बनें

बाइबल में दर्ज मसीह का संदेश मनुष्य के ज्ञान या उसकी व्याख्या से नहीं, बल्कि ईश्वर से आया है।

कुछ भाई मसीह के ईश्वरत्व का इन्कार करते हैं। वे लालच के लिए सिखाते हैं - पैसा, शक्ति, प्रसिद्धि यह दावा करते हुए कि मसीह केवल एक प्रेत था।⁹ उनकी निंदा की जाती है।

स्वर्गदूतों ने पाप किया है। परमेश्वर ने उन्हें पाताल लोक के सबसे गहरे भाग, टार्टरस में भेजा, जब तक कि मसीह वापस नहीं आ जाता और फिर न्याय नहीं हो जाता।⁷

कुछ लोग जो जुनून और तिरस्कार के अधिकार में लिप्त हैं, ईसाइयों के साथ संगति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका दिल लालच में प्रशिक्षित है। "क्योंकि जब वे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहिचान के द्वारा जगत की अशुद्धियों से बच निकले, और फिर उन में फंसकर जय पाए, तो उनकी पिछली दशा पहिली से भी बुरी हो गई। क्योंकि उनके लिये अच्छा होता कि वे नेकी का मार्ग कभी न जानें।" (2:20-21)

परमेश्वर चाहता है कि सभी को पाप से उसकी ओर मुड़ने का अवसर मिले। वह धैर्यवान है क्योंकि समय व्यर्थ है, क्योंकि वह शाश्वत है।

कुछ शिक्षाएँ उन लोगों के लिए कठिन होती हैं जिन्हें परमेश्वर या उसकी इच्छा के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। कुछ शायद अपनी मर्जी से लेकिन कुछ दूसरों की शिक्षाओं के कारण जिन्होंने अपने विश्वास के अनुरूप शास्त्रों के अर्थ को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है।²⁸

1 जॉन

यीशु एक वास्तविक व्यक्ति था²⁶ जो उसके साथ लगातार उसके द्वारा अनुप्रमाणित थे जिन्होंने उसे सुना, देखा और छुआ। वे प्रत्यक्षदर्शी हैं।¹⁵ परमेश्वर धर्मी है और जो मसीह में हैं वे मसीह के शुद्ध करने वाले लहू के कारण उसके साथ संगति में हैं। उसका प्रायश्चित बलिदान एक पवित्र बनाता है, यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास उसकी और उसकी शिक्षाओं को मानने या मानने से इनकार करने का विकल्प है।

चूँकि ईश्वर प्रेम है जो किसी से घृणा करता है (अच्छे की बजाय बुराई की कामना करता है) उसमें "जीवित" या "चलता" नहीं है।

मसीह में जो शरीर की लालसा चाहते हैं और दीन से अधिक घमण्डी हैं, वे संसार के हैं। उन्होंने मसीह को त्याग दिया है।

twisted the meaning of the scriptures to conform to their belief.²⁸

1 John

Jesus was a real person²⁶ attested to by those constantly with Him who heard, saw and touched him. They are eyewitnesses.¹⁵

God is righteous and those in Christ are in fellowship with Him because of Christ's cleansing blood. His atoning sacrifice makes one holy, **IF** they keep His commandments. This means we have the option to obey or refuse to obey Him and His teachings.

Since God is love anyone who hates (wishes evil rather than good) does not "live" or "walk" in Him. Those in Christ who desire passions of the flesh and are proud rather than humble are of the world. **They have abandoned Christ.**

Some within Christ's church, who deny Jesus was God in a human body, are the antichrist.

Those who have accept Christ and abide in Him have eternal life.

Occasional sin can be forgiven but "Christians" who **practice** living in their sin, do not abide in Christ.

Christ's message is "God is Love" – one can choose either to abide in love or death.

God answers prayers offered by the authority of Christ¹² when asked according to His will.

All who believe show their belief by their actions of love and obedience.

Christ is Eternal Life, so one continuing in sin leads to everlasting death.

Deity came to earth in the human form of Jesus of Nazareth and offered His message of forgiveness and salvation¹⁰ to all people. Those who accept Him and His message through obedience have Eternal Life.

2 John

Love one another for God is Love.

Love is living according to God's will.

Deceivers have gone out, **no longer in His Church**, because of their love for worldly things. They deny Jesus is the Christ.

Christians who do not live according to Christ's teachings have **abandoned** Him.

3 John

It is right for Christians to assist those who proclaim Christ and His message of forgiveness and salvation.

There will be some "Christians" who desire to control the lives of other Christians by power and authority. Therefore, be aware of them as they are living and teaching contrary to Christ. Therefore, do not encourage them by providing assistance.

मसीह की कलीसिया में कुछ, जो मानव शरीर में यीशु को परमेश्वर होने से इनकार करते हैं, वे मसीह विरोधी हैं।

जिन्होंने मसीह को स्वीकार कर लिया है और उनमें बने हुए हैं, उनके पास अनन्त जीवन है।

कभी-कभार होने वाले पाप को क्षमा किया जा सकता है लेकिन "मसीही" जो अपने पाप में जीने का अभ्यास करते हैं, वे मसीह में नहीं रहते हैं। मसीह का संदेश है "परमेश्वर प्रेम है" - कोई भी व्यक्ति प्रेम या मृत्यु में बने रहने का चुनाव कर सकता है।

जब उसकी इच्छा के अनुसार पूछा जाता है तो परमेश्वर मसीह 12 के अधिकार द्वारा की गई प्रार्थनाओं का उत्तर देता है।

जो सभी विश्वास करते हैं वे अपने प्रेम और आज्ञाकारिता के कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को प्रदर्शित करते हैं।

मसीह अनन्त जीवन है, इसलिए पाप में बने रहने वाला व्यक्ति अनन्त मृत्यु की ओर ले जाता है।

देवता नासरत के यीशु के मानव रूप में पृथ्वी पर आए और उन्होंने सभी लोगों को क्षमा और मोक्ष का संदेश 10 प्रदान किया। जो लोग आज्ञाकारिता के द्वारा उसे और उसके संदेश को स्वीकार करते हैं, उनके पास अनन्त जीवन है।

2 जॉन

ईश्वर के लिए एक दूसरे से प्रेम करना ही प्रेम है।

प्रेम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा है।

धोखेबाज बाहर चले गए हैं, उनके चर्च में नहीं, क्योंकि उनके सांसारिक चीजों के लिए प्यार है। वे इनकार करते हैं कि यीशु ही मसीह है।

ईसाई जो मसीह की शिक्षाओं के अनुसार नहीं रहते हैं उन्होंने उसे त्याग दिया है।

3 जॉन

ईसाइयों के लिए यह सही है कि वे उन लोगों की सहायता करें जो मसीह और उसके क्षमा और उद्धार के संदेश की घोषणा करते हैं।

कुछ "मसीही" ऐसे होंगे जो शक्ति और अधिकार के द्वारा अन्य ईसाइयों के जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए, उनके बारे में जागरूक रहें क्योंकि वे मसीह के विपरीत जी रहे हैं और सिखा रहे हैं। इसलिए सहायता प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित न करें।

जूदास

ऐसे अधर्मी लोग हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए मसीही शरीर के साथ इकट्ठे होते हैं। वे मसीह 27 के बाहर की राय और उसकी शिक्षाओं पर भरोसा करते हैं जो कुछ को भटकाते हैं। "ये कुड़कुड़ाने वाले, कुटिल लोग हैं, जो अपनी ही पापमय अभिलाषाओं का अनुसरण करते हैं; वे ऊँचे-ऊँचे शेखी बघारते हैं, लाभ पाने के लिए पक्षपात करते हैं।" (बनाम 16)

"उनकी भक्तिहीन अभिलाषाओं का अनुसरण करनेवाले ठट्टा करनेवाले होंगे। यह वे हैं जो आत्मा से रहित, सांसारिक लोगों को विभाजित करते हैं। परन्तु हे प्रियो, तुम अपने परम पवित्र विश्वास में दृढ़ हो जाओ; पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो; अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो,

Jude

There are ungodly people who assemble with the Christian body for personal gain. They rely on opinions outside Christ²⁷ and His teachings leading some astray. "These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires; they are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage." (vs. 16)

"There will be scoffers, following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people, devoid of the Spirit. But you, beloved, build yourselves up in your most holy faith; pray in the Holy Spirit; keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life." (vss. 18-21)

These ungodly people and scoffers were formerly in His Body but now follow their worldly desires while still assembling as if a Christian.

Superscripts

1. A Kingdom Not Made With Hands
2. Baptism Into Christ
3. Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die?
4. Bride of Christ
5. Christ, The Mystery of God
6. Compiling and Translating God's Word
7. Creation Before The Genesis Creation
8. First Principles of Christ
9. Gnosticism
10. God's Message of Reconciliation
11. Holy Spirit
12. In The Name of Jesus
13. Jesus and Apostles Doing God's Will
14. Jesus Emptied Himself of Deity
15. Jesus of Nazareth
16. Life of Christ
17. Living Liberated in a Sinful World
18. Marriage and Divorce
19. Millennialism
20. Revelation to the Apostle John
21. Shadows Types Prophecies - Revealed
22. Silence of Scriptures
23. Spiritual Milk
24. Summarized Bible
25. Teachings, Practices and Interpretations After AD 100
26. The Man Who Was God
27. Today's Church Teachings and Practices
28. Twisting the Scriptures To Prove A Belief
29. United in Christ

हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो, जो अनन्त जीवन की ओर ले जाता है।" (बनाम 18-21)

ये अधर्मी लोग और उपहास करने वाले पहले उसके शरीर में थे, लेकिन अब एक ईसाई की तरह इकट्ठे होते हुए भी अपनी सांसारिक इच्छाओं का पालन करते हैं।

सुपरस्क्रिप्ट

1. हाथों से नहीं बना एक साम्राज्य
2. मसीह में बपतिस्मा
3. शरीर, आत्मा और आत्मा - जब आप मरते हैं तो वे कहाँ जाते हैं?
4. मसीह की दुल्हन
5. क्राइस्ट, द मिस्ट्री ऑफ गॉड
6. परमेश्वर के वचन का संकलन और अनुवाद
7. उत्पत्ति निर्माण से पहले का निर्माण
8. मसीह के पहले सिद्धांत
9. शान-संबंधी का विज्ञान
10. सुलह का परमेश्वर का संदेश
11. पवित्र आत्मा
12. जीसस के नाम पर
13. यीशु और प्रेरित परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं
14. यीशु ने खुद को देवता से खाली कर दिया
15. नासरत का यीशु
16. मसीह का जीवन
17. एक पापी दुनिया में मुक्त रहना
18. विवाह और तलाक
19. मिलेनियलिज्म
20. प्रेरित यूहन्ना के लिए रहस्योद्घाटन
21. छाया प्रकार भविष्यवाणियां - प्रकट
22. शास्त्रों की चुप्पी
23. आध्यात्मिक दूध
24. सारांशित बाइबिल
25. 100 ईस्वी के बाद की शिक्षाएं, व्यवहार और व्याख्याएं
26. वह आदमी जो भगवान था
27. आज की कलीसिया की शिक्षाएँ और व्यवहार
28. एक विश्वास साबित करने के लिए शास्त्रों को घुमा देना
29. क्राइस्ट में यूनाइटेड
30. विधवा और अन्य जरूरतमंद
31. नए नियम की महिलाएं
32. डैनियल
33. मसीह की दुल्हन
34. उल्लिखित बाइबिल

30. Widows and Others in Need

31. Women of the New Testament

32. Daniel

33. Bride of Christ

Outlined Bible

International Bible Knowledge Institute - अंतर्राष्ट्रीय बाइबल ज्ञान संस्थान

Electives Studies - वैकल्पिक अध्ययन

Mortal Man From Life to Death - नश्वर मनुष्य जीवन से मृत्यु तक

Planned Redemption - नियोजित मोचन

Creation before Genesis - उत्पत्ति से पहले का निर्माण

What Shall We Do? हम क्या करें?

End of Time on Earth - पृथ्वी पर समय का अंत

Marriage and Divorce - विवाह और तलाक

Silence of the Scriptures - शास्त्रों की चुप्पी

Daniel - डैनियल

First Principles of Christ - मसीह के पहले सिद्धांत

Holy Spirit - पवित्र आत्मा

Types and Metaphors - पवित्र आत्मा

Additional Studies - वैकल्पिक अध्ययन

Today's Church Practices - वैकल्पिक अध्ययन

Compiling and Translating the Bible - बाइबल का संकलन और अनुवाद

Shadows, Types and Prophecies - छाया, प्रकार और भविष्यवाणियां

Teachings & Practices after AD 100 - 100 ईस्वी के बाद की शिक्षाएं और व्यवहार

God's Sabbath - भगवान का सप्ताह

Promises Now and For Evermore - वादे अभी और हमेशा के लिए

God's Rebuilding Process - भगवान की पुनर्निर्माण प्रक्रिया

Living The Maximum Life - अधिकतम जीवन जीना

Real Men are Godly Men - सच्चे पुरुष ईश्वरीय पुरुष हैं

Living For One Another - एक दूसरे के लिए जीना

Greatest Questions Ever Asked - अब तक के सबसे बड़े सवाल

Wonderful Words Of Life - जीवन के अद्भुत शब्द

Lessons From The Cross - क्रॉस से सबक

Jehovah's Witnesses church - यहोवा के साक्षी चर्च

Interesting but not required for BKS award - दिलचस्प है लेकिन बीकेएस पुरस्कार के लिए आवश्यक नहीं

Outlined Bible - उल्लिखित बाइबिल

Summarized - सारांशित बाइबिल

LESSONS AND SERVICES PROVIDED BY *INTERNATIONAL BIBLE KNOWLEDGE INSTITUTE* ARE FREE OF CHARGE.
YOU WILL NEVER BE ASK FOR TUITION OR ANY OTHER FEE. *IBKI* IS NOT AN ACCREDITED INSTITUTION.

अंतर्राष्ट्रीय बाइबल ज्ञान संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ और सेवाएं निःशुल्क हैं। आपसे कभी भी ट्यूशन या कोई अन्य शुल्क नहीं मांगा जाएगा। आईबीकेआई एक मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है।

संस्थान का लक्ष्य परमेश्वर और उसकी इच्छा के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बाइबल पाठ उपलब्ध कराना है। पाठों को प्रिंट करने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है, ऑनलाइन अध्ययन किया जा सकता है या व्यक्तियों या चर्चों द्वारा ईमेल मंत्रालय में उपयोग किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाइबल ज्ञान संस्थान (IBKI) से डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए एक छात्र ने चार आवश्यक पाठ्यक्रम और 7 वैकल्पिक पाठ पूरे किए होंगे।

उन्नत अध्ययन "बीकेएस" (बाइबिल नॉलेज स्कॉलर) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, एक डिप्लोमा अर्जित करने के अलावा एक छात्र ने सभी वैकल्पिक पाठ और 7 अतिरिक्त अध्ययन पूरे कर लिए होंगे।

आईबीकेआई गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पुस्तकों और पाठों को उनकी संपूर्णता में बिना किसी परिवर्तन या शुल्क के पुनः पेश करने की अनुमति देता है।

Course One - The Message | कोर्स एक - संदेश

How Did Everything Get Here? सब कुछ यहाँ कैसे आया?

The Man Who Was God वह आदमी जो भगवान था

Christ - God's Mystery क्राइस्ट - भगवान का रहस्य

Myths About God भगवान के बारे में मिथक

Course Two - Obedience To His Message | पाठ्यक्रम दो - उनके संदेश की आज्ञाकारिता

Time Before Christ मसीह से पहले का समय

Time Christ on the Earth पृथ्वी पर समय मसीह

Time After Christ मसीह के बाद का समय

Time to Decide तय करने का समय

From Death Through The Cross To Life मृत्यु से क्रूस के द्वारा जीवन की

Course Three - A New Spiritual Life In Christ | कोर्स तीन - मसीह में एक नया आध्यात्मिक जीवन

Baptism into Christ मसीह में बपतिस्मा

Life to Death - The Mortal Life

A Kingdom Not Made With Hands हाथों से नहीं बना साम्राज्य

Servants In The Kingdom राज्य में सेवक

Message From The Epistles पत्रियों से संदेश

Worship God In Spirit and Truth आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें

Course Four - Maturing In Christ | कोर्स चार - मसीह में परिपक्व होना

Jesus of Nazareth नासरत का यीशु

Life Of Christ मसीह का जीवन

United in Christ में संयुक्त

Spiritual Milk आध्यात्मिक दूध

Body, Soul, Spirit - Where Do They Go When You Die? शरीर, आत्मा, आत्मा - जब आप मरते हैं तो वे कहाँ जाते हैं?

Living Liberated लिविंग लिबरेटेड

Revelation Of Jesus Christ यीशु मसीह का रहस्योद्घाटन

कृपया इस कार्यक्रम और पाठों के बारे में सभी प्रश्नों को इस पते पर अपने नामित शिक्षक को निर्देशित करें।

Distributed by

Hyderabad & Naidupet Church of Christ,

1-2-168, CBN Colony, Helping Hands Trust,

Naidupet-524 126, A.P,India